



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 18—जून 24, 2011 (ज्येष्ठ 28, 1933)

No.25]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 18—JUNE 24, 2011 (JYAISTHA 28, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the  
Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 31 मई 2011

सं. ए-38014/01/2011-प्रशासन-II--संघ लोक सेवा आयोग के  
कार्यालय में कार्यरत श्री निहाल सिंह, अधीक्षक (डी.पी.) अधिवर्षिता की  
आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.05.2011 (31 मई 2011) के अपराह्न से  
सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

के. एम. शशिधरन  
अवर सचिव (प्रशासन)

पर दिनांक 31 मई, 2011 से छः माह की अवधि अथवा अगले आदे-  
तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

अनुभाग अधिकारी के पद पर इनकी नियुक्ति समय-समय पर  
संशोधित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्टाफ) नियमावली, 2007 के नियम  
4(1) (ब) के अंतर्गत पूर्णतया तदर्थ आधार पर है तथा इससे नियमित  
नियुक्ति के लिए उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

आर.एन. नायक  
विशेष कार्य अधिकारी (प्रशासन)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 2011

सं. 2/31/08-प्रशासन/130804--सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा आयोग  
में सहायक, श्री राजकुमार को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतन बैंड  
रु. 9,300--34,800/- में ग्रेड वेतन 4,800/- रु. के साथ तदर्थ आधार

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 31 मई 2011

सं. ई-38015(4)/1/एमएसए/2011/कार्मिक.1/145--जम्मू व कश्मीर  
लोक सेवा आयोग परीक्षा 2009 के आधार पर जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक

सेवा के जूनियर स्केल में नियुक्ति के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, केओसुब के निम्नलिखित राजपत्रित अधिकारियों का तकनीकी त्याग-पत्र उनके नामों के आगे दर्शाई गई तारीखों से स्वीकार करते हैं :--

क्र. अधिकारी का नाम सं. व पद	केओसुब इकाई/कार्यालय	कार्यभार छोड़ने की तारीख
सर्वश्री		
1. नासिर अली उप कमांडेंट/कार्य (लोकल बैंक)	एनएससीबीआई एयरपोर्ट केओसुब, कोलकाता	25.04.2011 (अपराह)
2. मलिक सहेल अहमद सहायक कमांडेंट (कार्य)	एनडीआरएफ बटालियन केओसुब, अराकोणम	28.04.2011 (अपराह)

ह./-अपठनीय  
महानिदेशक/केओसुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 31 मई 2011

सं. प्रशा.-I/का.आ.सं.-52--इस कार्यालय की श्रीमती कृष्णा सोनी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) वार्धक्य की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 30.04.2011 (अपराह) को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो चुकी हैं।

उनकी जन्म तिथि 05.04.1951 है और उनकी सरकारी सेवा आरम्भ की तिथि 10.10.1973 है।

ह./- अपठनीय  
उप निदेशक (प्रशासन)

सं. प्रशा.-I/का.आ.सं.-53--इस कार्यालय की श्रीमती उर्मिला देवी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) वार्धक्य की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 31.05.2011 (अपराह) को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो चुकी हैं।

उनकी जन्म तिथि 17.05.1951 है और उनकी सरकारी सेवा आरम्भ की तिथि 15.09.1972 है।

ह./- अपठनीय  
उप निदेशक (प्रशासन)

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय

श्रम ब्यूरो

शिमला-171004, दिनांक 31 मई 2011

सं. 5/1/2011-सी.पी.आई.--अप्रैल, 2011 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 1 अंक बढ़ कर 186 (एक सौ छियासी) अंकों के स्तर पर रहा।

एस.एस. नेगी  
निदेशक

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 2011

सं. ए-11025/1/2009-डीसीएचएल/स्था.-II--राष्ट्रपति द्वारा श्री रवीन्द्र कोमू को सहायक निदेशक, ग्रेड-I (बुनाई) के पद पर सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह-क राजपत्रित पद में 15,600--39,100/- रु. + 5,400/- ग्रेड वेतन (वेतन बैंड-3) के वेतनमान में बनकर सेवा केन्द्र, इम्फाल में दिनांक 19.05.2011 (पूर्वाह) से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त किया जाता है।

प्रीति कुमार

उप विकास आयुक्त (हथकरघा)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

विकास आयुक्त का कार्यालय

(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2011

सं. ए-19018/582/82-ए(जी)--सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने पर, श्री एस.के. पात्रा, निदेशक (रसायन), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम-विकास संस्थान, अगरतला (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम-विकास संस्थान के तहत), 30.04.2011 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

महिन्द्र सिंह  
उप निदेशक (प्रशासन)

सं. ए-19018/582/82-ए(जी)--सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने पर, श्री दिव्येंद्र विकास दत्ता, उप निदेशक (जी एंड सी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम-विकास संस्थान, कोलकाता (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान के तहत), 31.01.2011 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

महिन्द्र सिंह  
उप निदेशक (प्रशासन)

परमाणु ऊर्जा विभाग

क्रय और भंडार निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 31 मई 2011

सं. क्रभनि/07019/भर्ती/2404--निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, एतद्द्वारा श्री थॉमस जॉर्ज (क्रम. सं. 459), वरिष्ठ भंडारी, वेतन बैंड (पीबी-2) रु. 9,300-34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,200/-, केन्द्रीय भंडारे एकक, क्रभनि, मुंबई को सहायक भंडार अधिकारी के रूप में वेतन बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में दिनांक 06 मई 2011 के पूर्वाह से आगामी

आदेशों तक, इंदौर क्षेत्रीय भंडार एकक, क्रभनि, इंदौर में नियुक्त करते हैं।

कंथरीन राज  
प्रशासन-अधिकारी- III

सं. क्रभनि/07019/भर्ती/2405--निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, एतद्द्वारा श्रीमती राधा हरिहरन (कर्म. सं. 186), वरिष्ठ भंडारी, वेतन बैंड (पीबी-2) रु. 9,300-34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,200/-, केन्द्रीय भंडार एकक, क्रभनि, मुंबई को सहायक भंडार अधिकारी के रूप में वेतन बैंड (पीबी-2) रु. 9,300-34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में दिनांक 09 मई 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, भंडार एकक, क्रभनि, भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा में नियुक्त करते हैं।

कंथरीन राज  
प्रशासन-अधिकारी- III

भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400094, दिनांक 31 मई 2011

सं. भापाबो/भर्ती/5(2)-कै.का./2011/498--मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय), श्रीमती कोसिगि श्रौफ विजयलक्ष्मी, सहायक लेखा अधिकारी, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय) मुंबई को रु. 9,300-34,800/- के वेतन बैंड तथा रु. 4,800/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 31.05.2010 के पूर्वाह्न से 18.01.2011 के अपराह्न तक लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के.वी. पिल्लै  
प्रशासन अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 30 मई 2011

सं. पखनि-16/1/95-भर्ती (खंड-IV)/3122--निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग श्री वाई, मधुसूदन, सहायक (वेतन बैंड पी.बी.-2 रु. 9,300-34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,200/-) नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद को आगामी आदेशों तक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, दक्षिण क्षेत्र, बेंगलूरु में (वेतन बैंड पी.बी.-2, रु. 9,300-34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-) में अस्थाई रूप में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं।

पी. मोहन बाबु  
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

दिनांक 1 जून 2011

सं. पखनि-16/1/2002-भर्ती (खंड-III)/3150--निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्द्वारा श्री योगेश गणपथ दलवी, सहायक सुरक्षा अधिकारी-ए(पी.बी.-2,

रु. 9,300-34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,200/-) निसेसेप्रनि, मुंबई को आगामी आदेशों तक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली में सुरक्षा अधिकारी (वेतन बैंड पी.बी.-2 रु. 9,300-34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-) के पद पर दिनांक 12.05.2011 (पूर्वाह्न) से स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं।

पी. मोहन बाबु  
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

शहरी विकास मंत्रालय

(कार्य प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 2011

सं. 27-एडीजी/एस(12)/2011-ईसी-2/ईडब्ल्यू-1--श्री आर.बी. सिंह (राम बिलास सिंह) अपर महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नई दिल्ली अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप 31.05.2011 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

जे.एस. राठ  
अवर सचि

कम्पनी मामले मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स आनन्द कुरियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 22 फरवरी 2011

सं. 560(3)/एम.सी.ए./आर.ओ.सी.-दिल्ली(सीजीओ)/ध (560)/2011/00017--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आनन्द कुरियर्स प्राईवेट लिमि का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से व दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी.एल. मलि  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स वेरजौनी मैनपावर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 14 मार्च 2011

सं. 560(3)/एम.सी.ए./आर.ओ.सी.-दिल्ली(सीजीओ)/धारा (560)/2011/00144--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वेरजौनी मैनपावर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी.एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

सं. एम.सी.ए./आर.ओ.सी.-दिल्ली (सीजीओ)/धारा (560)/2011/00088--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सन् आई. टी. सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम



कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ए.डी.पी. क्लोथिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
नई दिल्ली-110019, 1 जून 2011

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/  
2011/00268--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा  
(3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से  
तीन मास के अवसान पर मैसर्स ए.डी.पी. क्लोथिंग कम्पनी प्राईवेट  
लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर  
से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एस.डी.पी. क्लोथिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
नई दिल्ली-110019, 1 जून 2011

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/  
2011/00257--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा  
(3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से  
तीन मास के अवसान पर मैसर्स एस.डी.पी. क्लोथिंग कम्पनी प्राईवेट  
लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर  
से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एस.एस.बी. क्लोथिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
नई दिल्ली-110019, 1 जून 2011

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/  
2011/00235--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा  
(3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से  
तीन मास के अवसान पर मैसर्स एस.एस.बी. क्लोथिंग कम्पनी प्राईवेट  
लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर  
से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में  
नई दिल्ली, दिनांक 6 जून 2011

सं. कं.र/दिल्ली/560(5)/ईईएस-2011/भाग-III/2385-कम्पनी  
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना

दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज के दिन से रजिस्टर से  
काट दिए गए हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी नाम
1	2	3
1.	149053	मैसर्स अथेना रिएलटर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	118649	मैसर्स सुमित इंशोरेंस एजेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	112537	मैसर्स हैप्पी होम अपार्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	023224	मैसर्स स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशंस प्राईवेट लिमिटेड
5.	050632	मैसर्स फैंकोट (इंडिया) लिमिटेड
6.	129882	मैसर्स सेफ एंड सेक्योर बोक्सेस पकैजिंग प्राईवेट लिमिटेड
7.	132430	मैसर्स के. एम. कम्प्यूटेक टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
8.	097762	मैसर्स एस.के.ए. मेटल (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
9.	146873	मैसर्स चावला होटल्स एंड कन्सल्टन्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	161026	मैसर्स कोरिन ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
11.	130205	मैसर्स एलक्सआयर बी.पी.ओ. प्राईवेट लिमिटेड
12.	075829	मैसर्स एल्लेनाबाद फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
13.	102799	मैसर्स एम.टी.जी. पब्लिशिंग प्राईवेट लिमिटेड
14.	168396	मैसर्स ऋषि इन्फ्राडेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	032882	मैसर्स साई दृष्टि चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	168395	मैसर्स आर.एस. इन्फ्रारियलटर्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	164879	मैसर्स मनसा इकुइटी एंड फाइनेंशियल (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
18.	120034	मैसर्स भोरूका निट्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	034328	मैसर्स एल्पा चिट्स फंड प्राईवेट लिमिटेड
20.	091412	मैसर्स एक्यूरेट कैप्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	156954	मैसर्स श्रेयास इन्फोसोल प्राईवेट लिमिटेड
22.	148467	मैसर्स चाइम्स होस्पीटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड
23.	149996	मैसर्स हस्तिगिरी इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टीस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
24.	165681	मैसर्स आर्टस्मार्ट मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड
25.	139582	मैसर्स सील एन्जिकॉस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
26.	050087	मैसर्स अटलांटिक एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	166501	मैसर्स प्रोएक्टिव इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
28.	016875	मैसर्स अतुल मस्चीनेन टूल फैब्रिक प्राईवेट लिमिटेड
29.	158747	मैसर्स प्रतिभ इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
30.	152925	मैसर्स पंचशील मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
31.	083734	मैसर्स गिराज म्युचुअल बनेफिट्स लिमिटेड
32.	063278	मैसर्स प्रेस्टीज अपार्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	033092	मैसर्स वैफ त्रिबोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
34.	101363	मैसर्स मैगस इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
35.	169766	मैसर्स गतिमान बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड
36.	085585	मैसर्स सत्य टेक्नोबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड
37.	168069	मैसर्स राईट इन्फ्राकान बिल्ड प्राईवेट लिमिटेड
38.	168068	मैसर्स राईट लैंड वे प्राईवेट लिमिटेड
39.	102270	मैसर्स रेड इंगल ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
40.	058305	मैसर्स पर्सनल पॉइंट केयर लिमिटेड
41.	168071	मैसर्स राईट प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	136073	मैसर्स स्वाम सबस्क्रिप्शन एंड आई. टी. एनेब्ल्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
43.	119935	मैसर्स द्वारिकाधीश इंश्योरेंस एजेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	064777	मैसर्स जेनून सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
45.	007435	मैसर्स विकास इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
46.	061318	मैसर्स शाम्भवी एन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड
47.	128602	मैसर्स के.एम.आर. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
48.	149288	मैसर्स दुगोदर बिल्ड टेक प्राईवेट लिमिटेड
49.	111252	मैसर्स उत्थान इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
50.	087369	मैसर्स सम्टेल डिस्प्ले लिमिटेड
51.	153660	मैसर्स टेल प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
52.	078343	मैसर्स वेस्टर्न रोडलाईस प्राईवेट लिमिटेड
53.	083145	मैसर्स कोशिका टेलीसिस प्राईवेट लिमिटेड
54.	008082	मैसर्स एग्रो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स (दिल्ली) प्राईवेट लिमिटेड
55.	113175	मैसर्स वन स्टॉप कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
56.	088043	मैसर्स बिम्ब्रह इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	169112	मैसर्स अम्बे इन्फ्राकान प्राईवेट लिमिटेड
58.	143664	मैसर्स बी. जे. अप्पेरल्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	163819	मैसर्स अस्सेंडेंट इन्फोटेक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
60.	106419	मैसर्स एक्स-पर्ट टूल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
61.	084804	मैसर्स सलोनी फिन्लिज प्राईवेट लिमिटेड
62.	139746	मैसर्स ओप्टीमम प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
63.	117471	मैसर्स कॉकण रेमेडीस प्राईवेट लिमिटेड
64.	148946	मैसर्स बी.वी.के. इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	075686	मैसर्स आयुषी फिन्वेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
66.	100115	मैसर्स साई कार्गो मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	162623	मैसर्स एक्वारिअस एसेट्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
68.	144089	मैसर्स स्काई सिटी डेवेलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
69.	166064	मैसर्स सर्वत्र हेल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड
70.	139825	मैसर्स साउल हर्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	037364	मैसर्स अपेक्स मूविस एंड एंटरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड
72.	133621	मैसर्स डी. एन. डिजाईन स्टूडियो प्राईवेट लिमिटेड
73.	152879	मैसर्स एल.आर. होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	148402	मैसर्स प्लेटिनम कुएस्ट ट्रेड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
75.	160855	मैसर्स एस.एम.सी. प्रिंट एंड पैक प्राईवेट लिमिटेड
76.	146725	मैसर्स एलिक्सर एक्सपोजिशन प्राईवेट लिमिटेड
77.	146730	मैसर्स मम्मों इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	012982	मैसर्स जुपिटर इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	054805	मैसर्स होसपाइस चिट प्राईवेट लिमिटेड
80.	131627	मैसर्स अनुश्री क्लोथिंग प्राईवेट लिमिटेड
81.	080011	मैसर्स हनी बी नैचुरल प्रोडक्ट्स (हरियाणा) प्राईवेट लिमिटेड
82.	052609	मैसर्स राम गंगा कम्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	171704	मैसर्स एच.आर.सी. होरिजॉन्स कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
84.	080341	मैसर्स स्नो वियु रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
85.	050926	मैसर्स प्रो चिट्स प्राईवेट लिमिटेड	113.	087722	मैसर्स मान्या प्रिंट-ओ-पैक प्राईवेट लिमिटेड
86.	139261	मैसर्स सेज कैम्पस एंड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	114.	162010	मैसर्स घितोरा एस्टेट कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	026545	मैसर्स एम.सी.एस. एडवरटईजिंग एंड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	115.	017249	मैसर्स मत्सैका एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
88.	103883	मैसर्स पवन-सूत स्टोक ब्रोकिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	116.	118329	मैसर्स क्यूबिक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
89.	119994	मैसर्स इन्टेलीसिस टेक सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड	117.	117774	मैसर्स आर.डी. फैशन प्राईवेट लिमिटेड
90.	127499	मैसर्स नियम डिजाइन प्राईवेट लिमिटेड	118.	067792	मैसर्स आनंदश्री ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
91.	029448	मैसर्स पारसनाथ एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड	119.	096142	मैसर्स रीडर ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
92.	174353	मैसर्स एच.एस.एम. स्पोर्ट्स मोटो प्राईवेट लिमिटेड	120.	071501	मैसर्स ए.के.जी. मिपकोन लिमिटेड
93.	107297	मैसर्स ईसोफ्ट विजुअल (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	121.	089063	मैसर्स न्यू एज होलसेलर प्राईवेट लिमिटेड
94.	037054	मैसर्स डाईनास्टी बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड	122.	116596	मैसर्स अवन्ती फैशन प्राईवेट लिमिटेड
95.	037046	मैसर्स स्काईहाई अपार्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	123.	037032	मैसर्स हरियाणा बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड
96.	109094	मैसर्स टीम क्यूब इ-सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	124.	083150	मैसर्स हिमालयन बेल प्राईवेट लिमिटेड
97.	066801	मैसर्स इन्टरनेशनल कमोडिटी एंड फाईनेंशियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	125.	103704	मैसर्स ओअसिस ट्रेडक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
98.	103341	मैसर्स सोल्विजर्स सेक्यूरिटी एंड एलाईड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	126.	126337	मैसर्स वी.ए.जी. आऊटसोर्सिंग सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
99.	146723	मैसर्स फेसटल एक्विज प्राईवेट लिमिटेड	127.	031455	मैसर्स लेग्रेड लुमनैऊर्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	062737	मैसर्स एक्स्ट्र सेक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	128.	066078	मैसर्स मरवाहा मेडिकल सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
101.	120309	मैसर्स वतन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	129.	136420	मैसर्स एच एस इंडीरिएस प्राईवेट लिमिटेड
102.	041099	मैसर्स डी.के. क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड	130.	132185	मैसर्स के टी कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	037044	मैसर्स राजधानी बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड	131.	012547	मैसर्स रूचि एन्टरप्राइसेज प्राईवेट लिमिटेड
104.	069192	मैसर्स गुदपुर मशरूम्स प्राईवेट लिमिटेड	132.	157519	मैसर्स विठल साई शरणम् डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
105.	093868	मैसर्स मनन ऑटोमोटिव्स प्राईवेट लिमिटेड	133.	105517	मैसर्स शुभ जेवर प्राईवेट लिमिटेड
106.	065633	मैसर्स फाईनेंशियल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	134.	073834	मैसर्स डिसेंट गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
107.	096583	मैसर्स अशे एंड एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	135.	112526	मैसर्स के. ओ. एण्ड इन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
108.	173578	मैसर्स होम्माट्स एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	136.	093005	मैसर्स फर्स्ट वेंचर फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
109.	105762	मैसर्स होरास ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	137.	131370	मैसर्स एम एस आउटसोर्सिंग सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
110.	012937	मैसर्स अरोरा एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	138.	078826	मैसर्स मारवाह सुगर एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड
111.	061501	मैसर्स सन-फोर्ड ओवरसीज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	139.	130055	मैसर्स डब्ल्यू एल जी इन्फो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
112.	024547	मैसर्स हाई टेक प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड	140.	041670	मैसर्स विज्ञान सर्जिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
			141.	070218	मैसर्स एयर सेवेन सीज ट्रांसपोर्ट लोजिस्टिक्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
142.	128550	मैसर्स लिंककुएस्ट सेक्योर प्राईवेट लिमिटेड
143.	053734	मैसर्स जे. बी. सुपर केरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
144.	074783	मैसर्स प्रीवाइस इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
145.	170729	मैसर्स उमकल हैल्थकेयर वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड
146.	132152	मैसर्स टुडे होटल्स महाराष्ट्र प्राईवेट लिमिटेड
147.	038524	मैसर्स टाईटन एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
148.	015033	मैसर्स चिनार इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
149.	163277	मैसर्स आई 2 आई मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
150.	012750	मैसर्स पी सी शर्मा एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
151.	098401	मैसर्स निशु ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
152.	144635	मैसर्स जैक रेस्टोरेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
153.	129373	मैसर्स एलैंग इन्फोर्मेशन सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
154.	149598	मैसर्स सबस्क्राईब बिल्ड टेक प्राईवेट लिमिटेड
155.	154265	मैसर्स टुडे होटल्स (चण्डीगढ़) प्राईवेट लिमिटेड
156.	150668	मैसर्स के. के. स्पाईसिज़ प्राईवेट लिमिटेड
157.	073936	मैसर्स मंगलम केबल्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
158.	139554	मैसर्स के. जे. ओ. मार्केटिंग एण्ड रिटेल ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
159.	114418	मैसर्स पी एम सी ओवरसीज़ कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
160.	110825	मैसर्स मनी स्पिन्स चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
161.	036654	मैसर्स प्रदीप पैकेजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
162.	112558	मैसर्स मकाओ ब्रिगेरिस एण्ड डिस्टिललेरिज़ प्राईवेट लिमिटेड
163.	150142	मैसर्स सर्च बिल्ड टेक प्राईवेट लिमिटेड
164.	108668	मैसर्स लीबेट्ज टेकनोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
165.	160778	मैसर्स एम बी एम एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
166.	087109	मैसर्स सुरक्षा म्यूचअल बैनेफिट्स लिमिटेड
167.	149947	मैसर्स आशियाना स्ट्रॉगबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड
168.	109370	मैसर्स सिम्फोनी टूर्स एण्ड फोरैक्स प्राईवेट लिमिटेड
169.	148001	मैसर्स चन्द्र ड्युरोबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड
170.	156785	मैसर्स सेग टेकनोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
171.	022135	मैसर्स सहायक चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
172.	110914	मैसर्स नेटशाक्स टेकनोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
173.	112507	मैसर्स टाईरिकू टूर्स एण्ड लीजर प्राईवेट लिमिटेड
174.	136620	मैसर्स सी एल डी कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
175.	027685	मैसर्स शिवालिक प्रोमोटर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
176.	114879	मैसर्स आर जे बी म्यूजिक प्राईवेट लिमिटेड
177.	024799	मैसर्स ज्योति ओप्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
178.	110906	मैसर्स इन्फोविज़न मर्चेन्डाईजिंग सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
179.	108933	मैसर्स आर बी एम कंस्ट्रक्शन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
180.	131768	मैसर्स किसना रेसक्यू एण्ड एडवेंचर प्राईवेट लिमिटेड
181.	026015	मैसर्स गढ़वाल रेफ्रेक्टोरीज़ प्राईवेट लिमिटेड
182.	015657	मैसर्स पी. यू. सोल्स प्राईवेट लिमिटेड
183.	062415	मैसर्स अलकनंदा फायनान्सीयल सर्विसेस ए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड
184.	098639	मैसर्स सुखशील इंजीनियर्स एण्ड कंसल्टेंट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
185.	107989	मैसर्स कृति ट्रांसक्रिप्शन प्राईवेट लिमिटेड
186.	099884	मैसर्स सोना गुप्ता कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
187.	129908	मैसर्स विसैप इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
188.	159703	मैसर्स चेकआउट पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
189.	122598	मैसर्स डी सी वी पी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
190.	046478	मैसर्स रेनबो पैकर्स प्राईवेट लिमिटेड
191.	141291	मैसर्स एनवी डिजाइन्स प्राईवेट लिमिटेड
192.	058576	मैसर्स लेक्ट्रोड्राईयर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
193.	157236	मैसर्स टुडे होटल्स (नोएडा) प्राईवेट लिमिटेड
194.	020964	मैसर्स विल इम्पोर्टर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
195.	083202	मैसर्स मणिकरण फिनलज प्राईवेट लिमिटेड
196.	032176	मैसर्स मजाल चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
197.	152880	मैसर्स राजन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
198.	160910	मैसर्स पेप्परमिन्ट एन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड
199.	119640	मैसर्स डेल्ही लेस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
200.	174653	मैसर्स लोटस न्यूज लैण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	230.	105358	मैसर्स इन्फोस्टार सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
201.	108869	मैसर्स क्लेर ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड	231.	077994	मैसर्स अचल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
202.	044271	मैसर्स एम सी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	232.	029735	मैसर्स नेभा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
203.	065227	मैसर्स धिन्यस फिनमेन प्राईवेट लिमिटेड	233.	011914	मैसर्स कूल चिट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
204.	037501	मैसर्स देवेन होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	234.	094305	मैसर्स एस. आर. इन्फोपार्क प्राईवेट लिमिटेड
205.	128490	मैसर्स ग्रीनअप कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	235.	093666	मैसर्स एक्सिलेंट कैरिंग एण्ड फोर्वाडिंग एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड
206.	124283	मैसर्स सन ग्लोबल गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	236.	055331	मैसर्स श्री नारायण मैसन डे कोमर्स प्राईवेट लिमिटेड
207.	089902	मैसर्स रासाशाला औशाधाश्रम (गोंडल) प्राईवेट लिमिटेड	237.	089441	मैसर्स मेडवोर्थ फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
208.	115366	मैसर्स एक्स्ट्राडीसॉफ्ट (इण्डिया) लिमिटेड	238.	076681	मैसर्स सन्मान पोर्टफोलियो प्राईवेट लिमिटेड
209.	035860	मैसर्स नोएडा लीजिंग एण्ड फायनांश प्राईवेट लिमिटेड	239.	131776	मैसर्स सहयोग एजुकेशन एकेडमी प्राईवेट लिमिटेड
210.	115051	मैसर्स वैश इम्पेक्ट क्लोथिंग प्राईवेट लिमिटेड	240.	127697	मैसर्स एल्फसिस एम्बेडेड सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
211.	128409	मैसर्स बीटनिक इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड	241.	057213	मैसर्स पी. आर. मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
212.	117898	मैसर्स प्रैगमैटिक विजन प्राईवेट लिमिटेड	242.	093330	मैसर्स एस. पी. एस. मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
213.	125199	मैसर्स टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	243.	174976	मैसर्स वैदिक एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
214.	013757	मैसर्स पावसकर बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	244.	156637	मैसर्स टाईरा टेक (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
215.	153438	मैसर्स एक्रोमड हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड	245.	023258	मैसर्स अस्पेक कोम्प्रेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
216.	094933	मैसर्स हार्ड-टेक कारबाईड टूल्स प्राईवेट लिमिटेड	246.	046940	मैसर्स ओम सिंघला पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
217.	154296	मैसर्स वेक्टर रियलटर्स प्राईवेट लिमिटेड	247.	168661	मैसर्स ऑस्ट्रियन इंडो मर्चेंडाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड
218.	104183	मैसर्स एस. वी. कंस्ट्रक्शन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	248.	124292	मैसर्स शकल एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड
219.	117009	मैसर्स परफैक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	249.	169776	मैसर्स स्पीड बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड
220.	175547	मैसर्स ट्रिप पण्डित ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	250.	143604	मैसर्स एयेज़ ओमेगा इंफोवे प्राईवेट लिमिटेड
221.	143565	मैसर्स एम आर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड	251.	031315	मैसर्स विन्कैब इलैक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
222.	102320	मैसर्स हेरिटेज वीयाजेस प्राईवेट लिमिटेड	252.	065437	मैसर्स टेलिकॉम इन्फोमैटिक्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
223.	149329	मैसर्स एस एन कंस्ट्रक्शंस प्राईवेट लिमिटेड	253.	026190	मैसर्स सिटिज़न लिफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
224.	128862	मैसर्स सत्यक कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	254.	106626	मैसर्स ई मेडीटेक डोट कॉम प्राईवेट लिमिटेड
225.	005347	मैसर्स रम्भा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	255.	009671	मैसर्स अमल्यामेडेड कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
226.	007912	मैसर्स नैचुरल हेल्थ प्राईवेट लिमिटेड	256.	123241	मैसर्स जोसेको यूथ डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
227.	091093	मैसर्स पैरागोन एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड	257.	106190	मैसर्स फ्रेम बाय फ्रेम एन्टरटेनमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
228.	111958	मैसर्स मैत्रेयी एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	258.	119691	मैसर्स भाग्य चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
229.	031924	मैसर्स कृष्ण प्रोग्रेसिव डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
259.	034606	मैसर्स जी पी एस हिमांशु चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड	286.	134970	मैसर्स रिचलूक इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
260.	037881	मैसर्स पाईलोट प्लांट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	287.	140050	मैसर्स मैक्सिमस डबलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
261.	107354	मैसर्स डेस्टिनेशन हिमालयन टूर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	288.	144981	मैसर्स अरोडा पी. पी. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
262.	073291	मैसर्स रीलाईबल इम्पेक्स लिमिटेड	289.	082762	मैसर्स गोल्डन वेकेशंस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
263.	106594	मैसर्स होरिजॉन्टल ड्रिलिंग इंटरनेशनल (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	290.	122888	मैसर्स अशटोन ई-सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
264.	170939	मैसर्स इन्सिग्निया आर्टवेल (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	291.	152933	मैसर्स सी. एण्ड सी. फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
265.	035573	मैसर्स मिरे सॉफ्ट वेयर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	292.	065075	मैसर्स माया मैनुफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
266.	018779	मैसर्स सेलेक्टेड चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड	293.	069571	मैसर्स तमन्ना ओवरसिज प्राईवेट लिमिटेड
267.	110734	मैसर्स ई. एन. एस. आर. इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	294.	095333	मैसर्स जे. आर. जी. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
268.	024003	मैसर्स एकता चिट्स प्राईवेट लिमिटेड	295.	119424	मैसर्स यूटीलिटीरियन आई. टी. सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
269.	056115	मैसर्स पी. एम. के. एग्रो प्राईवेट लिमिटेड	296.	120705	मैसर्स बास गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
270.	014525	मैसर्स हैट्स इस्टर्न ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	297.	107644	मैसर्स राहिनो सेक्युरिटीज इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
271.	113987	मैसर्स ओ. टी. टी. क्लोथिंग प्राईवेट लिमिटेड	298.	160029	मैसर्स अटलैटिक नौटिकल क्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
272.	144858	मैसर्स ब्लेसिंग इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	299.	037494	मैसर्स सन रोयल होस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड
273.	114306	मैसर्स युनिडोक्स इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	300.	129199	मैसर्स बिजुडाईरेक्ट कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
274.	113986	मैसर्स पाराफ्रेज़ क्लोथिंग प्राईवेट लिमिटेड	301.	036609	मैसर्स भविष्य बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
275.	047209	मैसर्स मार्वेल वाईरस प्राईवेट लिमिटेड	302.	117448	मैसर्स गुरुकेम लैबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड
276.	013802	मैसर्स दिव्या मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	303.	123273	मैसर्स दिव्या आयुर्वेद प्राईवेट लिमिटेड
277.	064075	मैसर्स सी सोलर पॉवर (इण्डिया) लिमिटेड	304.	093036	मैसर्स ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी कॉस्मेटिक लेज़र सें. प्राईवेट लिमिटेड
278.	099055	मैसर्स फाईरफ्लाई एन्टटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड	305.	113315	मैसर्स एटम इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
279.	174439	मैसर्स इन्फोविजन एच. आर. सर्विसेज़ प्राईवेट लिमिटेड	306.	134763	मैसर्स विन्सम ड्रेसेज़ प्राईवेट लिमिटेड
280.	142877	मैसर्स मागरिट आईट्स प्राईवेट लिमिटेड	307.	134762	मैसर्स प्योर लाईफ अप्परेल्स प्राईवेट लिमिटेड
281.	154640	मैसर्स आर. के. फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	308.	033313	मैसर्स सुदेश हार्डवेयर प्राईवेट लिमिटेड
282.	084504	मैसर्स वेबमास्टर इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड			पी. एल. मलिक उप कम्पनी रजिस्ट्रार रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा
283.	042329	मैसर्स पैक्ट ओवरसिज प्राईवेट लिमिटेड			कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
284.	082357	मैसर्स सीमैक्स सेक्युरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड			कानपुर, दिनांक 30 मई 2011
285.	060468	मैसर्स सिद्धार्थ इन्फोमैटिक्स प्राईवेट लिमिटेड			सं. 560(5)/77-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित संलग्न

कम्पनियों के नाम रजिस्टर से काट दिए गए हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:—

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	026647	मैसर्स डोलसे अपारिल्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	018120	मैसर्स एम. एस. फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	022839	मैसर्स सी. एम. खण्डेलवाल शेयर ब्रोकर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	012985	मैसर्स आगरा कारपेट्स एण्ड केलिमस प्राईवेट लिमिटेड
5.	026432	मैसर्स श्री देवान्श निर्माण प्राईवेट लिमिटेड
6.	011882	मैसर्स कानपुर मार्केटिंग सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
7.	026491	मैसर्स साईनेर्जी सेल्स नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
8.	029986	मैसर्स आस्था कम्प्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड
9.	027350	मैसर्स रिगालिआ मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
10.	025500	मैसर्स कनसेप्ट सर्किल इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड
11.	010961	मैसर्स एस. एन. जैन स्टील प्राईवेट लिमिटेड
12.	027239	मैसर्स आयुषी किसान ऑटोमोबाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	031890	मैसर्स शक्तिमान ट्यूब्स एण्ड पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	020696	मैसर्स क्वालिटी लेदर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
15.	033761	मैसर्स आई. एस. ई. सी. एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
16.	006429	मैसर्स अश्वनी सीमेन्ट इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
17.	003778	मैसर्स आर. के. इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
18.	024672	मैसर्स एनजेल क्योर प्राईवेट लिमिटेड
19.	010624	मैसर्स आर. पी. एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
20.	031617	मैसर्स माँ शक्ति एडीबल्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	030026	मैसर्स ग्राण्ड स्टील इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	013690	मैसर्स सोम्या सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	027783	मैसर्स तन्दूरी मैगजीन प्राईवेट लिमिटेड
24.	025359	मैसर्स बी. एच. इनफोसेस प्राईवेट लिमिटेड
25.	027601	मैसर्स ओम श्री साई आश्रय प्राईवेट लिमिटेड
26.	015526	मैसर्स राविको ट्रेनिंग इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
27.	023670	मैसर्स वापी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
28.	025029	मैसर्स पवना ऑटो केबिल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
29.	030838	मैसर्स फिन-वैब आउटसोर्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	034203	मैसर्स सी. टी. निर्माण इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
31.	013938	मैसर्स विनय सन्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	029281	मैसर्स एसविन पैकजिंग प्राईवेट लिमिटेड
33.	004725	मैसर्स वोरका एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	030855	मैसर्स राधे राधे फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	031121	मैसर्स ट्रेडसेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	022335	मैसर्स बी. पी. आर. कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस फैक्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
37.	011395	मैसर्स सोनल चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
38.	026775	मैसर्स सोम प्रधान फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	032248	मैसर्स बंसी शीतग्रह प्राईवेट लिमिटेड
40.	012173	मैसर्स मयंक ट्रांसकोर एण्ड कंडक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	034825	मैसर्स राधे कृष्णा रिटेल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
42.	030231	मैसर्स एम. एम. ट्रेवल एक्सप्रेस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
43.	008537	मैसर्स अभिषेक इन्सटालमेंट प्राईवेट लिमिटेड
44.	018957	मैसर्स प्रोएक्टिव फार्मेशियल सर्विसिस लिमिटेड
45.	009561	मैसर्स बत्रा ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
46.	003636	मैसर्स बाक्स एण्ड कार्टून प्राईवेट लिमिटेड
47.	029422	मैसर्स स्ट्रेट फरो इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
48.	025321	मैसर्स करषनी इण्डस्ट्रीयल गैसेस प्राईवेट लिमिटेड
49.	027867	मैसर्स रेनुष्का इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
50.	033562	मैसर्स वरुण इन्स्टीट्यूट ऑफ मैरीनर्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	014194	मैसर्स रसिक इन्सुलेशन प्राईवेट लिमिटेड
52.	011795	मैसर्स भानू स्टील मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

एम. पी. शाह  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 01 जून 2011

सं. 560(5)/79--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित संलग्न कम्पनियों के नाम रजिस्टर से काट दिए गए हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	027947	मैसर्स वेट्स विज़न प्राईवेट लिमिटेड
2.	011343	मैसर्स मेरी होम अपलाएन्सेस प्राईवेट लिमिटेड
3.	033413	मैसर्स फारविज़न नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड
4.	006205	मैसर्स सहयोग इन्वेस्टमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
5.	014771	मैसर्स पंकज मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	026980	मैसर्स इण्डक्राफ्ट एक्सपोजीशन प्राईवेट लिमिटेड
7.	026426	मैसर्स क्लीयर विज़न लेजर सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
8.	009562	मैसर्स वरुण फायनेंशियर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	008091	मैसर्स जियान एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
10.	029412	मैसर्स आनवार्ड पब्लिसर्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	033155	मैसर्स रिलाएबल इन्फ्राडेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	031844	मैसर्स किशन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
13.	022481	मैसर्स मेघानी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	012703	मैसर्स पुष्पान्तली कन्सलटेंट एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड

एम. पी. शाह  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 2 जून 2011

सं. 560(5)/81--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित

संलग्न कम्पनियों के नाम रजिस्टर से काट दिए गए हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	026016	मैसर्स ओजोन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	019249	मैसर्स राम दुलारे फायनेंस कम्पनी लिमिटेड
3.	017827	मैसर्स एवनला म्यूचुअल बैनीफिट्स लिमिटेड
4.	018276	मैसर्स स्कैन लैबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड
5.	014528	मैसर्स किशन म्यूचुअल बैनीफिट्स लिमिटेड
6.	014767	मैसर्स रिज फायनेंस एण्ड लीजिंग कम्पनी लिमिटेड
7.	026060	मैसर्स जे. एस. स्पोजन आयरन लिमिटेड
8.	012833	मैसर्स सनातन हाऊसिंग एण्ड फायनेंस इण्डिया लिमिटेड
9.	021249	मैसर्स नेमी म्यूचुअल बैनीफिट्स लिमिटेड
10.	015323	मैसर्स सचदेवा कॉमर्शियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्ट लिमिटेड
11.	012653	मैसर्स श्री वर्दमूर्ति फायनेंस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
12.	030060	मैसर्स टॉप नोच ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
13.	026270	मैसर्स बिओन्ड नेटवर्क्स एकेडमी प्राईवेट लिमिटेड
14.	027691	मैसर्स एस्ट्रो फिनमार्ट प्राईवेट लिमिटेड
15.	026125	मैसर्स एयर रेफ इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	004318	मैसर्स मेरठ सेमलिंग प्राईवेट लिमिटेड
17.	030499	मैसर्स एबीएस हाऊसिंग डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
18.	032545	मैसर्स डीबीआई डिजाइन सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	023412	मैसर्स आकाश कैटरिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
20.	021957	मैसर्स कृष्णा हरे कृष्णा क्रेडिट सेक प्राईवेट लिमिटेड
21.	033783	मैसर्स जीपीएम चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड

एम. पी. शाह  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 3 जून 2011

सं. 560(5)/82--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित संलग्न

कम्पनियों के नाम रजिस्टर से काट दिए गए हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	003549	मैसर्स रेन्बो फाउन्डरीज प्राईवेट लिमिटेड
2.	022528	मैसर्स गेवे एक्सपोर्ट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
3.	023076	मैसर्स सिद्धार्थ हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
4.	020712	मैसर्स उत्तरायण ओरगेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	026856	मैसर्स डाई सेम टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
6.	022976	मैसर्स नक्वी कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड
7.	031963	मैसर्स कोनार्क निरमान लिमिटेड
8.	026834	मैसर्स कूलक्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

एम. पी. शाह  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में  
चण्डीगढ़, दिनांक 01 जून 2011

सं. टीएस/560(3)/450--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	24667	मैसर्स ए.जी. हरबल्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	33006	मैसर्स कामधेनु कार्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
3.	31274	मैसर्स ब्रैंड रियल्टी चण्डीगढ़ प्राईवेट लिमिटेड
4.	32542	मैसर्स एसवीआर एजुकेशनल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
5.	13529	मैसर्स क्रिती इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
6.	06225	मैसर्स लक्ष्मी मैन्यूफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
7.	02804	मैसर्स सरहिंद खन्ना ट्रांसपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	32664	मैसर्स डैक्सट्रस टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
9.	31805	मैसर्स पैनन कैपिटल एडवाइज़री प्राईवेट लिमिटेड
10.	27862	मैसर्स वी. एण्ड टी. कन्सल्टेंसी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
11.	34077	मैसर्स जस्ट एसएमएस एडवर्टाईजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
12.	08326	मैसर्स दलीप फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
13.	07765	मैसर्स नरुला कन्सल्टेंस प्राईवेट लिमिटेड
14.	09976	मैसर्स सरबत फाईनेंस एण्ड लिजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
15.	29083	मैसर्स गोल्डन कनेक्शन्स एंजिज़म प्राईवेट लिमिटेड
16.	03675	मैसर्स मरकन्डाईल कन्सल्टेंट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
17.	15210	मैसर्स एमीनेंट ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
18.	30700	मैसर्स फस्ट इम्प्रीग्रेशन पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	10611	मैसर्स पंजाब ब्रिक्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
20.	08199	मैसर्स जीएसए फाईनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	09062	मैसर्स पकीज़ा डिपोजिट्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
22.	26977	मैसर्स एम. पी. फ्लाईवैल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
23.	11012	मैसर्स रनौता एग्रो इन्टरप्राइज़ेज प्राईवेट लिमिटेड
24.	23222	मैसर्स के. एस. आटो सेल्स एण्ड कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड

राज सिंह  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़  
पंजाब हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 31 मई 2011

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560(3)/714--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :--

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 31 मई 2011

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560(5)/715--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	010539	मैसर्स देव रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	028188	मैसर्स चिराग मल्टीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
3.	010820	मैसर्स भवानी रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	000484	मैसर्स डीलर्स एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
5.	030858	मैसर्स श्री चारभुजा एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
6.	021629	मैसर्स हिमाद्री ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	020625	मैसर्स विकास टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड
8.	020445	मैसर्स शर्मा टेलिकोम लिमिटेड
9.	018190	मैसर्स श्री रिषभ शेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	018590	मैसर्स जेनोमे रेमेडिज प्राईवेट लिमिटेड
11.	020332	मैसर्स क्यूफिस्कल्स मीरा शेयर्स कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	027222	मैसर्स कल्याण बिल्डविजन प्राईवेट लिमिटेड
13.	011557	मैसर्स अपेक्स फिनसेक प्राईवेट लिमिटेड
14.	027555	मैसर्स स्काई हाईट्स ट्रेडलिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	002172	मैसर्स श्री जितेन्द्र टेक्सटाइल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	004627	मैसर्स गुडलक कन्सल्टन्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	020185	मैसर्स सेन्ट प्लाईवुड इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
18.	032463	मैसर्स स्टार रेडिक्स एज्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड
19.	026772	मैसर्स सुमन होम स्टेडी प्राईवेट लिमिटेड
20.	016970	मैसर्स आर. पी. इलेक्ट्रिक प्राईवेट लिमिटेड
21.	032320	मैसर्स भावाती मिनटेक प्रोसेजर्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	013528	मैसर्स सुरभीत गार्डन्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	028254	मैसर्स शिव सुरेन्द्र गौर मल्टीट्रेड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
24.	002611	मैसर्स प्रभात इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड

एस. पी. कुमार  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	020046	मैसर्स हक होस्पिटलियी प्राईवेट लिमिटेड
2.	002746	मैसर्स कमल इन्वेस्टर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	015281	मैसर्स एसीई कोल्ड चैन्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	016112	मैसर्स राम सिंह स्टोन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
5.	017397	मैसर्स गोविन्द थ्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	017882	मैसर्स वी-3 ट्रेड टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड
7.	018503	मैसर्स सीता सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	020695	मैसर्स अभी ट्रेडलिंक प्राईवेट लिमिटेड
9.	021134	मैसर्स कंगसाबती एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
10.	022085	मैसर्स आदित्या हैण्डिक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	022123	मैसर्स राजदेव मिडिया प्राईवेट लिमिटेड
12.	022675	मैसर्स नवीन बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड
13.	024060	मैसर्स सरन शेयर्स एण्ड डेरिवेटिव्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	027650	मैसर्स तिरुपति पावरटेक प्राईवेट लिमिटेड
15.	006437	मैसर्स माधव इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
16.	031277	मैसर्स श्रीनाथ मराइन लोजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	023503	मैसर्स ओटेवा लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
18.	016450	मैसर्स निम्बिसाइड्स केमिकल्स इण्डिया लिमिटेड
19.	026423	मैसर्स फारस ग्लो मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
20.	032224	मैसर्स शक्ति डैस्टीनेशन्स एण्ड लॉग बार प्राईवेट लिमिटेड
21.	029086	मैसर्स माइकॅकले आइडियल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
22.	028142	मैसर्स श्री हरीओम केबल नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
23.	029220	मैसर्स एस. एम. परिवार मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
24.	022458	मैसर्स पाइनियर प्रभात मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
25.	023724	मैसर्स प्रेडिक्टीव इंजीनियरिंग सिमूलेशन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
26.	017108	मैसर्स धर्मावती इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड

एस. पी. कुमार  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 31 मई 2011

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560(5)/716--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	002607	मैसर्स कोठारी पेपीरस कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	007630	मैसर्स दुगर प्लान्टेशन्स लिमिटेड
3.	009156	मैसर्स उत्तम माल्ट प्राईवेट लिमिटेड
4.	016006	मैसर्स शिवालय डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	017101	मैसर्स सी बेयर इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	017797	मैसर्स मैक्स प्रोमोशन्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	018076	मैसर्स वेलोसिटी टोल्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	018613	मैसर्स वैभव लक्ष्मी सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	018809	मैसर्स ओरचिड्स ज्वैलरी प्राईवेट लिमिटेड
10.	020587	मैसर्स जिन कुशल एग्रो बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
11.	020748	मैसर्स पूजा जैन सिक्यूरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
12.	020892	मैसर्स समदानी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	023112	मैसर्स जीवन रतन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
14.	023335	मैसर्स जय बालाजी कृपा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
15.	024497	मैसर्स शुभलोक रियल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
16.	025775	मैसर्स हरेकृष्णा स्टीलटेक प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
17.	025785	मैसर्स हरेकृष्णा ब्रेवरेज प्राईवेट लिमिटेड
18.	025843	मैसर्स हरेकृष्णा ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड
19.	025847	मैसर्स हरेकृष्णा हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
20.	003002	मैसर्स साबू इन्टरप्राइजेज लिमिटेड
21.	003216	मैसर्स तेजस्वी व्हाइट सीमेंट इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
22.	003579	मैसर्स आदिती वेन्चर लिमिटेड
23.	007943	मैसर्स सुपर स्पून इण्डिया लिमिटेड
24.	009845	मैसर्स स्टार परेफिन्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	010468	मैसर्स मेघाग्रोथ फार्मिनेस प्राईवेट लिमिटेड
26.	011060	मैसर्स एसएमएल वेलबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड
27.	011348	मैसर्स के. एच. माईनकेम प्राईवेट लिमिटेड
28.	011477	मैसर्स स्काईवे सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	013440	मैसर्स बालोथिया फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड
30.	013672	मैसर्स बंसल क्रेशर प्राईवेट लिमिटेड
31.	017557	मैसर्स मनोचा कृषि विहार प्राईवेट लिमिटेड
32.	021767	मैसर्स अराविया हर्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	022821	मैसर्स हीरोज टेक्सप्रिन्ट प्राईवेट लिमिटेड
34.	022840	मैसर्स सचिया बिजनेस सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	023298	मैसर्स पंचबुल्स स्टॉक ब्रोकर्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	023397	मैसर्स मोयां वीर सिक्यूरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
37.	023519	मैसर्स कोलोसेअम फिटनेस प्लानेट प्राईवेट लिमिटेड
38.	023701	मैसर्स फाइव बडीज इन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड
39.	023843	मैसर्स जेनेटिक्स हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
40.	024883	मैसर्स तन्त्र ज्वेलस प्राईवेट लिमिटेड
41.	009598	मैसर्स पिनस्कले फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड
42.	008323	मैसर्स विवेक होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड

एस. पी. कुमार  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

पटना, दिनांक 23 मई 2011

सं. आरओसी/पैट/560(5)/ईईएस-2011/502--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम, आज रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	010282	मैसर्स इफीसिएन्ट स्पीट प्राईवेट लिमिटेड
2.	009826	मैसर्स रूस्पा फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	007648	मैसर्स निकास सिक्कुरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
4.	011112	मैसर्स कृष्णगीता कन्सट्रक्शन एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	011290	मैसर्स मृणाल डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	002019	मैसर्स विजय गुप्स सी एण्ड एम प्राईवेट लिमिटेड
7.	008706	मैसर्स कुमुद इन्फोरमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	004385	मैसर्स आटो जॉन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
9.	010578	मैसर्स बनानचल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
10.	010335	मैसर्स बेलबम डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	010272	मैसर्स परफेक्टएम्स ट्रेड एण्ड बिजनेस प्राईवेट लिमिटेड
12.	010148	मैसर्स बिरसा इंजीनियर्स वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	013163	मैसर्स श्रची जयद्वीप कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
14.	004745	मैसर्स आर्चटेक डेवलपर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
15.	012628	मैसर्स एसपी मलिक ओटनमल इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	011952	मैसर्स त्रम्बेकेसबर कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
17.	010619	मैसर्स कुसलरीशब मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

ओ.पी. शर्मा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
बिहार एवं झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में  
पटना, दिनांक 23 मई 2011

सं. आरओसी/पैट/560(3)/ईईएस-2011/503--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से 30 दिन के उपरान्त यदि इसके

प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किए गए तो निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	005952	मैसर्स नालंदा इस्पात उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
2.	009804	मैसर्स क्लासिक भवन प्राईवेट लिमिटेड
3.	007998	मैसर्स विक्रमसीला एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड
4.	006963	मैसर्स कैमको स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	001012	मैसर्स अरेन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड

ओ.पी. शर्मा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
बिहार एवं झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

पटना, दिनांक 26 मई 2011

सं. आरओसी/पैट/560(5)/ईईएस-2011/542--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम, आज रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	005443	मैसर्स नार्थ ईस्ट सेविंग एण्ड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लिमिटेड
2.	005825	मैसर्स विष्णु एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
3.	009819	मैसर्स निसोनी टेक्नोक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	006703	मैसर्स सरवेसवरी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	008656	मैसर्स लीहाला कॉन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	010777	मैसर्स रॉकसीस कम्प्यूटर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
7.	001998	मैसर्स इस्टर्न टेक्नो प्रोवाइडर्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	009399	मैसर्स मॉ रूकमीनी डेवलपर्स कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
9.	006723	मैसर्स एलाइन्स प्लान्टेशन एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	001241	मैसर्स बिहार खण्डसारी उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
11.	011740	मैसर्स साहिआना डेवलपर्स एण्ड कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
12.	004442	मैसर्स भालोटिया कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
13.	013493	मैसर्स देविका बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
14.	012870	मैसर्स आसाजी रसोई प्राईवेट लिमिटेड
15.	011840	मैसर्स परटीनेन्ट योमान कन्सट्रक्शन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

ओ.पी. शर्मा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
बिहार एवं झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

पटना, दिनांक 31 मई 2011

सं. आर.ओ.सी./पैट/560(5)/ईईएस-2011/552--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम, आज रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	007302	मैसर्स चार्मड प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	009232	मैसर्स स्नेहा एवीएशन प्राईवेट लिमिटेड
3.	011158	मैसर्स वरुण फेरस स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	010992	मैसर्स श्री सूर्यम स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	009407	मैसर्स ट्रीनीटी सॉफ्टेल प्राईवेट लिमिटेड
6.	008872	मैसर्स भारथु निर्माण लिमिटेड
7.	012840	मैसर्स मनोज फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	004250	मैसर्स नीक मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड
9.	012505	मैसर्स बीओस लाईफ साइन्सेज प्राईवेट लिमिटेड
10.	005103	मैसर्स ओक एण्ड उड बोटलर्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	011295	मैसर्स शिवा टेक डेवलपमेंट एण्ड कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
12.	008595	मैसर्स आसरा कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
13.	004585	मैसर्स श्याम टेकट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
14.	012522	मैसर्स हरबोलाईट रिसर्च एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
15.	013341	मैसर्स भगवती इंजिकॉन प्राईवेट लिमिटेड

ओ.पी. शर्मा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
बिहार एवं झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स बारामती पावर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 1 जून 2011

सं. आर.ओ.सी./55265/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बारामती पावर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स डिजीटल पिक्सल वेब ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 2 जून 2011

सं. आर.ओ.सी./56700/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डिजीटल पिक्सल वेब ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी.एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स कुआन्या फार्मा प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 2 जून 2011

सं. आर.ओ.सी./58883/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कुआन्या फार्मा प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी.एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

मुंबई, दिनांक 1 जून 2011

सं. आर.ओ.सी./560(5)/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम, आज रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :—

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	031078	मैसर्स तलबोत ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
2.	140333	मैसर्स मास्टेक आउटसोर्सिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
3.	122621	मैसर्स ऑल इण्डिया फार्मास्युटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एण्ड क्लीयरिंग एण्ड फॉरवॉर्डिंग एजेन्ट्स ऑरगेनाइज
4.	186339	मैसर्स वसुन्धरा विकासक प्राईवेट लिमिटेड
5.	186475	मैसर्स कल्पक विकासक प्राईवेट लिमिटेड
6.	055437	मैसर्स एवरमोर पाईप सिस्टम्स लिमिटेड
7.	069258	मैसर्स एवरमोर पॉलीमर सिस्टम्स लिमिटेड
8.	184325	मैसर्स सॅफ्रॉन इन्शोरेन्स ब्रोकर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	167071	मैसर्स आर एन ऑटोमोटीव प्राईवेट लिमिटेड
10.	155038	मैसर्स प्रोमॅन इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	49720	मैसर्स ओमेगा मेनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड
12.	171998	मैसर्स क्वेस्ट रियलिटी प्राईवेट लिमिटेड
13.	182253	मैसर्स पल्स इन्डेज हॉस्पिटलिटी लिमिटेड
14.	184676	मैसर्स डॉफव कन्सलटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
15.	77975	मैसर्स एवरमोर कॉनवेस्ट लिमिटेड
16.	44739	मैसर्स त्रोजन स्पोर्ट्सवेयर प्राईवेट लिमिटेड
17.	183149	मैसर्स लिलीव्हाइट कैपिटल एडवाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	141265	मैसर्स सरस इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
19.	131202	मैसर्स जसाप्रित कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	131077	मैसर्स श्रेयश ट्रेडर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
21.	184963	मैसर्स फिंग एडवाइजर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
22.	148005	मैसर्स स्पेकसॉफ्ट टेक्नोलॉजिस इण्डिया लिमिटेड
23.	119939	मैसर्स ओरिऑन एडवैंचर्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	173836	मैसर्स क्युएसआर क्युसिन्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	62033	मैसर्स कोलोसियम स्पोर्ट्स एण्ड रिक्रिएशन इन्टरनेशनल
26.	170511	मैसर्स मेघा कारपोरेट कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	168120	मैसर्स पॉलिगॉन नेट प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
28.	107805	मैसर्स सेनगुप्ता कृषि संस्थान प्राईवेट लिमिटेड
29.	009691	मैसर्स स्वॉन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
30.	180253	मैसर्स नेटक्लूस सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	131149	मैसर्स प्रोटॉन सॉफ्टेक लिमिटेड
32.	131083	मैसर्स वेनटेक टेक्नोलॉजिस लिमिटेड
33.	130916	मैसर्स क्लिप्टो फार्मास्युटिकल लिमिटेड
34.	31085	मैसर्स ट्रान्स अट्लान्टीक ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
35.	47985	मैसर्स डेकॉन फाईनेशियल सर्विसेस लिमिटेड
36.	44423	मैसर्स नमिता पैकेजिंग एण्ड प्रिन्टिंग इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
37.	157085	मैसर्स क्लोनऐज इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	080982	मैसर्स मायावती फिनवेस्ट एण्ड लिजींग प्राईवेट लिमिटेड
39.	167403	मैसर्स त्रिष्णा मल्टी ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
40.	168249	मैसर्स मथिआस दंतास इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	128909	मैसर्स दिनार इन्फोसॉफ्ट लिमिटेड
42.	050321	मैसर्स तामिर इरेक्टर्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	114986	मैसर्स हाई लाइन बिजनेस सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
44.	056875	मैसर्स कॉम्पैक्ट पेपर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	137590	मैसर्स रेवेची इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	130134	मैसर्स आदर्शलोक एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
47.	006700	मैसर्स हीट्रीट्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	133343	मैसर्स क्यू मार्केट रिसर्च इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
49.	123182	मैसर्स भांजा कन्सलटिंग एण्ड इन्टरमिडीआरिस प्राईवेट लिमिटेड
50.	171536	मैसर्स कोराडी पॉवर कम्पनी लिमिटेड
51.	144863	मैसर्स ओऑसिस मेरीटायम एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
52.	046772	मैसर्स डेक्कन कॉमर्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
53.	108645	मैसर्स आर्म्सस्ट्रान्ग मेकाट्रॉनिक्स सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
54.	015470	मैसर्स चावला इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	116385	मैसर्स पारसी वेलफेयर (सिंद) प्राईवेट लिमिटेड
56.	142504	मैसर्स स्वैन ऑडिओ एण्ड वीडिओ स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	190742	मैसर्स सिद्धिविनायक फॉरवर्डर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
58.	157766	मैसर्स करेज कैपिटल एडवाइजरी प्राईवेट लिमिटेड
59.	072813	मैसर्स प्लेनेट कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
60.	083222	मैसर्स सोगो इलैक्ट्रॉनिक कन्ट्रोल्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	096235	मैसर्स सूर्या सिस्टेमैटीक डाटा प्राईवेट लिमिटेड
62.	011383	मैसर्स चौगुले इंजीनियर्स एण्ड मशीन्स लिमिटेड

राजेन्द्र सिंह मीणा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

पुडुच्चेरी-605011, दिनांक 30 मई 2011

सं. 3(156)/560(5)/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम, आज रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	01852	मैसर्स एक्स सर्विसमैन सिक्कूरिटी एण्ड डिटेक्टिव ब्यूरो प्राईवेट लिमिटेड
2.	1031	मैसर्स योगलक्ष्मी फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड

वी. स्वामीदासन  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
पुडुच्चेरी

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोलकाता-700020, दिनांक 2 जून 2011

सं. कर/प.बं/560(5)/2011/803--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी नाम
1	2	3
1.	075584	मैसर्स पेन्सी प्लान्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
2.	124611	मैसर्स ब्राइट विनट्रेड प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
3.	066118	मैसर्स प्लॉट लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
4.	037104	मैसर्स फाउन कॉन प्राईवेट लिमिटेड
5.	072287	मैसर्स यूनीएक्ससल इन्टरनेशनल लिमिटेड
6.	073649	मैसर्स राधे कृष्णा इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
7.	112593	मैसर्स गबोन इन्डे प्रोजेक्ट डवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
8.	077224	मैसर्स ग्रीन वुड इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
9.	071349	मैसर्स एन एण्ड के घोष फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	079422	मैसर्स कृष्णा मेटालॉय प्राईवेट लिमिटेड
11.	109357	मैसर्स मेगाबाईट विनिमय प्राईवेट लिमिटेड
12.	093177	मैसर्स कोन्नगर कम्प्यूटर एजुकेशन सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
13.	021965	मैसर्स विद्योदया लाईब्रेरी प्राईवेट लिमिटेड
14.	039849	मैसर्स बाईट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	086600	मैसर्स भवानी पॉलीपैक प्राईवेट लिमिटेड
16.	102073	मैसर्स मन्दाकिनी मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड
17.	101291	मैसर्स स्टार्गिलिश विनिमय प्राईवेट लिमिटेड
18.	106975	मैसर्स इन्स्टा कन्सल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड
19.	037424	मैसर्स डोरिक बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	091166	मैसर्स मैनक प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	020107	मैसर्स हिन्दुस्तान नेशनल बागा एण्ड बरलेप कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
22.	027934	मैसर्स पॉली कन्टेनर्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	113732	मैसर्स एपेक्स प्लाजा प्राईवेट लिमिटेड
24.	077041	मैसर्स गंगा मल्टीपरपर्स आर्टीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	037182	मैसर्स सुमित (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
26.	090913	मैसर्स एमएपीपी कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	089636	मैसर्स अन्नदम इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
28.	092859	मैसर्स टी. पी. इन्फो एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
29.	095358	मैसर्स टी. पी. एस. इन्फो सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
30.	106866	मैसर्स सेन्सर ऑपरेशन्स स्पोर्ट सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
31.	112514	मैसर्स एएफआई ऑटोटेक प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
32.	108835	मैसर्स मकराना सेनीटेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	040241	मैसर्स एमएसजे फाइनैशंस एण्ड कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	052098	मैसर्स बिजयो पिक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	111475	मैसर्स एनवायरोटेक सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	098449	मैसर्स बी बी एसेट्स मैनेजमेंट एण्ड फाइनैशियल कन्सलटेंट प्राईवेट लिमिटेड

हरिहर साहू  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोलकाता-700020, दिनांक 6 जून 2011

सं. कर/प.बं/ईईएस-560/2011-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	021389	मैसर्स छयनिका प्रैस प्राईवेट लिमिटेड
2.	081411	मैसर्स कौशिक पॉली-पैक प्राईवेट लिमिटेड
3.	110915	मैसर्स फ्रूशन कम्प्यूनिक्शन प्राईवेट लिमिटेड
4.	053360	मैसर्स एडीक इन्टरनेशनल लिमिटेड
5.	057909	मैसर्स अटलान्टा हैल्थ सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
6.	032418	मैसर्स सिलपो-ओ-वाणिज्या प्राईवेट लिमिटेड
7.	051302	मैसर्स एल. डी. सर्विसिस एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	069577	मैसर्स वाटरसन मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	062332	मैसर्स रजत होमफिन प्राईवेट लिमिटेड
10.	051820	मैसर्स कोठारी फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
11.	044678	मैसर्स डॉन कलर लैबोरेट्री प्राईवेट लिमिटेड

हरिहर साहू  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोलकाता-700020, दिनांक 6 जून 2011

सं. कर/प.बं/ईईएस-560/2011-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	042208	मैसर्स चटर्जी ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	087847	मैसर्स समाधान कम्प्यूटर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	030096	मैसर्स रामसरूप फाइनैशियर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	107809	मैसर्स गोरखा ब्रिगेरीज एण्ड डिस्टिलरीज प्राईवेट लिमिटेड
5.	074712	मैसर्स एस. के. टेक्नीराइट बिजनेस प्राईवेट लिमिटेड
6.	045374	मैसर्स अल्ट्रा पॉवर स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
7.	039824	मैसर्स असम सर्विसिस एण्ड एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड
8.	049484	मैसर्स कस्तूरी क्रेडिट प्राईवेट लिमिटेड
9.	055939	मैसर्स पॉस इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	050358	मैसर्स कामाक्षी कॉमर्शियल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
11.	106404	मैसर्स के. पी. एस. इस्पात इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
12.	102881	मैसर्स परिजात प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
13.	109913	मैसर्स श्रीराम कमोडीयल प्राईवेट लिमिटेड
14.	084707	मैसर्स ए. बी. कन्वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	074491	मैसर्स फालकॉम मरचेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	021789	मैसर्स हिन्दुस्तान सेलिंग एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड
17.	020477	मैसर्स के. एम. साधुखान एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	101091	मैसर्स एच. बी. पी. बिजनेस एडवाइज़री सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
19.	065398	मैसर्स स्केन इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
20.	076875	मैसर्स अभिनन्दन ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
21.	089372	मैसर्स एस. जी. एस. ऑटोमेशन सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
22.	109133	मैसर्स स्पेक्ट्रम बायोफ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	069170	मैसर्स बोलेवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	116384	मैसर्स धनश्री फिन केप्स लिमिटेड
25.	078567	मैसर्स प्रसाद फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	087290	मैसर्स एकेजी हैल्थ केयर सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
27.	099358	मैसर्स आर्चीव एडवाइजरी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
28.	060714	मैसर्स रशिम सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
29.	027002	मैसर्स जनता शिपिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
30.	061824	मैसर्स क्रेडेन्स ट्रेकिंग प्राईवेट लिमिटेड
31.	083135	मैसर्स आर. एस. टेक सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
32.	098432	मैसर्स डी. आर. आर. पी गुप्ता ड्रग हाऊस प्राईवेट लिमिटेड
33.	076867	मैसर्स रीताम्भरा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	076441	मैसर्स पंकज डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	098561	मैसर्स नरसिंह कमोडीटीज प्राईवेट लिमिटेड
36.	087064	मैसर्स कृष्णानिक्स कन्ट्रोलस प्राईवेट लिमिटेड
37.	108371	मैसर्स रुद्रा गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	095614	मैसर्स नरेन्द्रा सिनेमा प्राईवेट लिमिटेड
39.	106268	मैसर्स एस. एल. सी. नेटकॉम सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
40.	104011	मैसर्स सिल्वरलाईन कार्डियाक केयर प्राईवेट लिमिटेड
41.	075575	मैसर्स आयेशा फ्लोरिस्ट प्राईवेट लिमिटेड
42.	060576	मैसर्स कौशिक ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
43.	075576	मैसर्स नारकीसस फ्लोरिस्ट प्राईवेट लिमिटेड
44.	116831	मैसर्स श्री पूजा कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	117085	मैसर्स शिकार डीलकॉम प्राईवेट लिमिटेड
46.	084278	मैसर्स सुरबी मरचेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
47.	075562	मैसर्स दहलिया फ्लोरिस्ट प्राईवेट लिमिटेड
48.	115416	मैसर्स गणपति सीड्स एण्ड बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
49.	106168	मैसर्स स्पेस 'एन' विंग्स टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	106485	मैसर्स अनीडस मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
51.	100361	मैसर्स स्मार्ट एजेन्सी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
52.	097800	मैसर्स कोलकाता हाई राईस प्राईवेट लिमिटेड
53.	100926	मैसर्स ओंकार टी प्राईवेट लिमिटेड
54.	073671	मैसर्स चित्रावली कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड

हरिहर साहू  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 1 जून 2011

सं. करं/शि./560/694-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:—

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी नाम
1	2	3
1.	005953	मैसर्स ओरीयन पैकर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	002981	मैसर्स मणिपुर सीमेंट्स लिमिटेड
3.	002374	मैसर्स मणिपुर सैकलस कारपोरेशन लिमिटेड
4.	001488	मैसर्स मणिपुर इसपेनिंग मिल्स कारपोरेशन लिमिटेड
5.	006576	मैसर्स मेघालया वेप एण्ड वीज़न प्राईवेट लिमिटेड
6.	003920	मैसर्स जीसी एग्रो एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	002974	मैसर्स एम. एस. लूहीत पैक्स लिमिटेड
8.	000755	मैसर्स चेनीजन टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
9.	000754	मैसर्स गोरानान टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
10.	005035	मैसर्स नेहा सेनच्युरी फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	003841	मैसर्स पूर्वअंचल टायर्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	007946	मैसर्स सीटीवीयू होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	003513	मैसर्स केयर लैबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
14.	006049	मैसर्स कींग एक्वा प्राईवेट लिमिटेड
15.	005623	मैसर्स पतफीन्डर ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	006732	मैसर्स एमजीटी स्पेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	006603	मैसर्स माईक्रो मीडिया इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
18.	001511	मैसर्स स्ट्रक्चरल एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
19.	007581	मैसर्स लोईस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड

डॉ. एन. चौधरी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कटक-753001, दिनांक 30 मई 2011

सं. आर.ओ.सी./560(5)/892-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिए गए हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम	
1	2	3	4
1.	15-006680	मैसर्स सारदा पॉवर लिंक प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	
2.	15-009714	मैसर्स सिख्या प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड	
3.	15-006508	मैसर्स मुगलाई अफेयर फ्रूट एण्ड ब्रेवरेज चेन्स प्राईवेट लिमिटेड	
4.	15-008401	मैसर्स गीगा कनसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	
5.	15-007208	मैसर्स श्री हनुमान कार्बन प्राईवेट लिमिटेड	
6.	15-008460	मैसर्स एम. के. ईट सल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड	
7.	15-008268	मैसर्स माँ लक्ष्मी प्लांट बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड	
8.	15-002623	मैसर्स विक्टर कम्प्यूटर प्राईवेट लिमिटेड	

1	2	3	4
9.	15-008723	मैसर्स उत्कल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड	
10.	15-008968	मैसर्स हाईटेक इन्फोपार्क प्राईवेट लिमिटेड	
11.	15-007077	मैसर्स बांकेश्वरी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	
12.	15-002636	मैसर्स चान्दनी रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	
13.	15-002157	मैसर्स जगन्नाथ लैंड एण्ड हाऊसिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड	
14.	15-008137	मैसर्स ड्रीमलैंड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड	
15.	15-009547	मैसर्स एस. के. इक्यूपमेंट्स एण्ड स्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	

वी. मोहन्ती  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कटक-753001, दिनांक 1 जून 2011

सं. आर.ओ.सी./560(5)/940-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिए गए हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	15-006454	मैसर्स अरूपा शैल्यर प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-006641	मैसर्स एक्स जेन सिस्टम्स लिमिटेड
3.	15-006881	मैसर्स उरीमार्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
4.	15-007357	मैसर्स ऑटो ट्रैक प्राईवेट लिमिटेड
5.	15-011397	मैसर्स बीकन टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड

वी. मोहन्ती  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में  
कटक-753001, दिनांक 3 जून 2011

सं. आर.ओ.सी./560(5)/952-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं तथा उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी नाम
1.	15-003255	मैसर्स एम. एम. सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	15-003665	मैसर्स सिन्ध रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
3.	15-002744	मैसर्स निलाद्री कम्बाईन्स प्राइवेट लिमिटेड
4.	15-008488	मैसर्स सिद्धार्थ बिल्डर्स एण्ड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	15-000584	मैसर्स जे एण्ड जे फार्मास्युटीकल्स प्राइवेट लिमिटेड

वी. मोहन्ती  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स इगिलकौन्टी रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 12 मई 2011

सं. एस.एम. 560(3)एम.सी.ए./आर.ओ.सी./एरनाकुलम/560/2011/00039--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इगिलकौन्टी रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. जी. जोसफ जाक्सन  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
केरल एवम् लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स वाई. सी. टी. कुरीज़ प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 12 मई 2011

सं. एस.एम. 560(3)एम.सी.ए./आर.ओ.सी./एरनाकुलम/560/2011/00044--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास

के अवसान पर मैसर्स वाई. सी. टी. कुरीज़ प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. जी. जोसफ जाक्सन  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
केरल एवम् लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर्कस्केच इंजीनियर्स एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 18 मई 2011

सं. एस.एम. 560(3)एम.सी.ए./आर.ओ.सी./एरनाकुलम/560/2011/00083--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आर्कस्केच इंजीनियर्स एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. जी. जोसफ जाक्सन  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
केरल एवम् लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ईपिल्लर्स टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 26 मई 2011

सं. 20173/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ईपिल्लर्स टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के. जी. जोसफ जाक्सन  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
केरल एवम् लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स जीकोर टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 26 मई 2011

सं. 15982/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जीकोर टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के. जी. जोसफ जाक्सन  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
केरल एवम् लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स यूनीबिस सिक्कुरिटीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
कोच्चि-682021, दिनांक 26 मई 2011

सं. 18477/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स यूनीवर्स सिक्कुरिटीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के. जी. जोसफ जाक्सन  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
केरल एवम् लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स जितेक एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
कोच्चि-682021, दिनांक 26 मई 2011

सं. 16122/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जितेक एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के. जी. जोसफ जाक्सन  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
केरल एवम् लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में  
काच्चि-682021, दिनांक 26 मई 2011

सं. एस एम 560(5)/ईईएस-2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	रजिस्ट्रेशन सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	1067	मैसर्स शेषासायी ब्रदर्स ट्रावनकोर प्राईवेट लिमिटेड
2.	1733	मैसर्स केरला कन्स्ट्रक्शन कंपोनेंट्स लिमिटेड
3.	2218	मैसर्स चालाकुडी रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड
4.	2899	मैसर्स मार ग्रिगोरियस गारमेंट्स लिमिटेड
5.	4454	मैसर्स वयनाड स्टील्स एण्ड एलॉयस प्राईवेट लिमिटेड
6.	5245	मैसर्स जोहन प्लास्टमेट प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
7.	5264	मैसर्स उप्पला अरोमेटिक इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
8.	6915	मैसर्स सुरक्षा टायर्स लिमिटेड
9.	8026	मैसर्स यूरोशिया गैस इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
10.	8227	मैसर्स कोलुयरा प्रोपर्टीज एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	8270	मैसर्स सुरालक्ष्मी हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	8484	मैसर्स उदया मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
13.	9939	मैसर्स टिट बिट सुपर मार्केट प्राईवेट लिमिटेड
14.	10855	मैसर्स के.पी.वी. मार्केटिंग सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
15.	11032	मैसर्स कोचिन एसिड्ज एण्ड केमिकल्स इण्डिय प्राईवेट लिमिटेड
16.	12028	मैसर्स गेन्नियल मार्केटिंग सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
17.	12148	मैसर्स मिलकवे डेयरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	12240	मैसर्स राधेसा सारी ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
19.	12598	मैसर्स लाईफ बुक्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	12623	मैसर्स पंजा टायर्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	14166	मैसर्स ओआरबी नेक्सस मरकेन्डाईसिंग प्राईवेट लिमिटेड
22.	14210	मैसर्स येम के रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड
23.	14351	मैसर्स वेदिक होलिडेज कोम प्राईवेट लिमिटेड
24.	14403	मैसर्स कुरुविलाशेरी ग्रामिना कुरीज प्राईवेट लिमिटेड
25.	14678	मैसर्स ईनेट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
26.	15089	मैसर्स रेडियन्ट प्लास्टो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	15554	मैसर्स वाईसेम इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्फोरमेश टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
28.	15993	मैसर्स अप्पुएस डिजिटल स्टुडियो प्राईवेट लिमिटेड
29.	16099	मैसर्स कोचिन वाटर टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
30.	16169	मैसर्स गोल्डन ट्रिट रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	16618	मैसर्स कन्ननकण्डी फ्लोरिंग प्राईवेट लिमिटेड
32.	16635	मैसर्स थ्रिशुर डायमंड कंपनी लिमिटेड
33.	16700	मैसर्स जी-वे मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
34.	16722	मैसर्स व्हिल मैरीन प्राईवेट लिमिटेड
35.	16762	मैसर्स श्री भद्रा पिकचर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
36.	17378	मैसर्स राईट होम्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	17402	मैसर्स लाईन्ज इन्फो सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	17450	मैसर्स कोयिकल डिजिटल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	17460	मैसर्स थ्रि बिज़ सर्विसिस एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
40.	17698	मैसर्स मेक्स ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	17726	मैसर्स गुरु देवा ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
42.	18057	मैसर्स इन्सपिगो टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
43.	18476	मैसर्स मालाबार मेडिकल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
44.	18478	मैसर्स इन्फार्म विक्टरी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
45.	18788	मैसर्स एम.पी.टी. कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	19028	मैसर्स स्ट्रेटिजिक एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
47.	19092	मैसर्स जी.टी.एस. सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
48.	19304	मैसर्स वेमबिलिल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	19342	मैसर्स मानज़ाडन्ज़ मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
50.	19409	मैसर्स गारडियन एन्वायरनमेन्टल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
51.	19924	मैसर्स कन्नुर श्री विनायका टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	20036	मैसर्स वि टुगैदर एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
53.	20056	मैसर्स स्ट्रोबेरी होलिडेज़ इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
54.	20915	मैसर्स कडाथाड एग्रोस (इण्डिया) लिमिटेड
55.	21011	मैसर्स मेक्सकेयर होस्पीटल्स प्राईवेट लिमिटेड

के. जी. जोसफ जाक्सन  
कंपनी पंजीयक  
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 26 मई 2011

सं. 560(5)/ईईएस-2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	रजिस्ट्रेशन सं.	कम्पनी का नाम
1.	223	मैसर्स दि कोचिन कार्मिशियल सिंडीकेट लिमिटेड
2.	9219	मैसर्स मट्टम फाईनैस कंपनी लिमिटेड
3.	9633	मैसर्स विशाक रोड लाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	9715	मैसर्स कोलुथरा सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	10051	मैसर्स निला मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	13621	मैसर्स के.के.के. ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	14123	मैसर्स त्रिवेन्द्रम ई-कामर्स सर्विसिस एण्ड टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
8.	14178	मैसर्स केविन बायो प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
9.	14227	मैसर्स भूपाड़ी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	16462	मैसर्स चैतन्या फ्लोर मिल्स लिमिटेड
11.	16633	मैसर्स क्रिसक मैनेजमेंट सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड

के. जी. जोसफ जाक्सन  
कंपनी पंजीयक  
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स नियो लेम्पस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 4 मई 2011

सं. 560(5)/12593--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नियो लाम्बज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. ई. जोसकुट्टी  
सहायक कम्पनी पंजीयक  
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स कन्सेप्ट्स होलिडेज़ इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 4 मई 2011

सं. 560(5)/6027--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स कन्सेप्ट्स होल्डिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. ई. जोसकुट्टी  
सहायक कम्पनी पंजीयक  
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

हैदराबाद, दिनांक 30 अप्रैल 2011

सं. आर.ओ.सी./560(5)/ईईएस-2011/एसआरडी/1--4--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	रजिस्ट्रेशन सं.	कम्पनी का नाम
1.	039721	मैसर्स शुभाला आयुर्वेदिक एण्ड कोसमैटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	057518	मैसर्स सनस्पेस प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	031169	मैसर्स विष्णुतेजा कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	047047	मैसर्स 17 टेक्नोलोज़िज़ प्राईवेट लिमिटेड

शशि राज दारा  
उप सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

हैदराबाद, दिनांक 30 अप्रैल 2011

सं. आर.ओ.सी./560(5)/ईईएस-2011/एसआरडी/1--161--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	रजिस्ट्रेशन सं.	कम्पनी का नाम
1.	027027	मैसर्स महावीर शेल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	053876	मैसर्स डी.वी.एन. होम फीलड्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	052601	मैसर्स माधवी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
4.	011700	मैसर्स यूनिक पॉवर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
5.	004402	मैसर्स पाईनियर इंटरप्राइसेस एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	028895	मैसर्स हैदराबाद टेलिविजन प्राईवेट लिमिटेड
7.	036808	मैसर्स रिड्ज इम्पेक्स लिमिटेड
8.	047183	मैसर्स महेश्वरी परमेश्वरी रोड लाईन्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
9.	045381	मैसर्स सिरि बायो मेडिकल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	029557	मैसर्स विभावरी कन्सट्रक्शन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
11.	029402	मैसर्स विभावरी हाउसिंग एण्ड प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	056779	मैसर्स बिकॉन वेल्थ एड्वाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	018846	मैसर्स एम. एल. फाईनैशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
14.	057765	मैसर्स रयानी मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	025453	मैसर्स श्री पदमनाभा चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	033291	मैसर्स हरिविन्शा आई.टी. सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	030469	मैसर्स सी.पी.बी. श्रीकाकुलम ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	038768	मैसर्स ट्रिम्फ होम अप्लाइन्सेस प्राईवेट लिमिटेड
19.	058067	मैसर्स एस.के. वेल्थ क्रिएटर्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	004289	मैसर्स टेस्टी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	038200	मैसर्स सरवानि टेक्नोलोज़िज़ प्राईवेट लिमिटेड
22.	051563	मैसर्स आदर्श फिन कैम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
23.	048965	मैसर्स सोल आई टी सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	019880	मैसर्स एलुरु कम्प्यूनिकेशन नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
25.	008767	मैसर्स थर्मल विद्युत कन्डक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	057465	मैसर्स विनविन मल्टी शोपिंग (ए पी) प्राईवेट लिमिटेड
27.	017690	मैसर्स सुरभी होलिडेस प्राईवेट लिमिटेड
28.	043973	मैसर्स ए.सी.एम.ई. होम सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	041557	मैसर्स एस्टर नैचुरल्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	034357	मैसर्स स्कैलार्क पॉवर जेनरेशन प्राईवेट लिमिटेड

1.	2	3	1	2	3
31.	048736	मैसर्स डी.सी.एस. टर्बाइन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	59.	042078	मैसर्स वी.आई. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
32.	039359	मैसर्स रामालक्ष्मी बायो-एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	60.	029161	मैसर्स ग्लोबल इन्फोमेड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
33.	023426	मैसर्स गुडिपुटि एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	61.	044085	मैसर्स पोथिना पॅल्प प्राईवेट लिमिटेड
34.	016342	मैसर्स वसवी इंटीग्रेटेड सर्विसेस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	62.	026953	मैसर्स सॅनगोल्ड एग्री फार्मस एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
35.	045520	मैसर्स डॉ. जे.एम.आर. कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड	63.	005378	मैसर्स एस.वी.ई.सी. पोली-पैक प्राईवेट लिमिटेड
36.	013356	मैसर्स सीवेल मेराइन प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	64.	034249	मैसर्स वंडर वेब सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	021342	मैसर्स आर.आर. बायो एनर्जीस लिमिटेड	65.	053373	मैसर्स शिरडी साई इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	041076	मैसर्स अगस्तया कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	66.	013484	मैसर्स नीबुलर ऑर्गेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	053230	मैसर्स नैचुरल डिजाइन एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड	67.	044648	मैसर्स यात एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	049789	मैसर्स विजोन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	68.	051777	मैसर्स मुक्कुट्यातोडे हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड
41.	007013	मैसर्स इंडियन बोटिल्स प्राईवेट लिमिटेड	69.	051634	मैसर्स अलमपारातोडु हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड
42.	027298	मैसर्स किनफ पॉवर एण्ड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	70.	050448	मैसर्स पोसानि डिवेलप्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	051424	मैसर्स एच.बी. लैण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड	71.	033207	मैसर्स वेंकट रमना एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड
44.	030196	मैसर्स कल्लम पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	72.	054740	मैसर्स सुरा एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड
45.	007648	मैसर्स पी.एन. मेटकेम प्राईवेट लिमिटेड	73.	009787	मैसर्स श्री रामा मनोरामा टाइल्स लिमिटेड
46.	048410	मैसर्स बिल्ला गिफ्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	74.	009800	मैसर्स एल.एफ.एम. इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
47.	040238	मैसर्स सेलिब्रिटी एस्सेस मीडिया नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड	75.	013510	मैसर्स पिनिसेट्टी इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	013536	मैसर्स रोंगाला टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड	76.	042780	मैसर्स श्री गौरिदेवी पॉवर प्राईवेट लिमिटेड
49.	017942	मैसर्स अम्बिका रोटोपैक लिमिटेड	77.	043127	मैसर्स जिनोवा बॉयो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	050545	मैसर्स सिद्धार्थ विल्लास प्राईवेट लिमिटेड	78.	053138	मैसर्स जियोइन्टिल्लीजेन्ट सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	050443	मैसर्स लयला माइनिंग एण्ड मिनिरल्स प्राईवेट लिमिटेड	79.	013098	मैसर्स ट्रेडवेल रबबर प्राईवेट लिमिटेड
52.	040183	मैसर्स कोनफियान्जा कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	80.	033384	मैसर्स बिड इण्डिया कॉम प्राईवेट लिमिटेड
53.	046450	मैसर्स सोल एक्सपोर्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	81.	034978	मैसर्स आश्रिता क्रिएशन लिमिटेड
54.	051011	मैसर्स मेटल इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	82.	038596	मैसर्स 3-बी टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
55.	033343	मैसर्स लोवेनटिला इन्फोरमेशन सिस्टम्स लिमिटेड	83.	049059	मैसर्स मेयसन फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	013776	मैसर्स निपुम हाईटेक एटलेंटिक सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	84.	051790	मैसर्स नर्गन कोरपोरेट एडवाइसरी सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	048056	मैसर्स फार्चून एवेन्यूस प्राईवेट लिमिटेड	85.	021042	मैसर्स श्री रामाकृष्णा प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	040949	मैसर्स हेवन इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	86.	051789	मैसर्स नरगन ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
87.	053874	मैसर्स डी.वी.एन. ड्रिमलैण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
88.	052600	मैसर्स हिमा होम्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	035656	मैसर्स पाईनियर मल्टीटेक प्राईवेट लिमिटेड
90.	058446	मैसर्स 3-आर.डी. रॉक आई टी सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
91.	038057	मैसर्स सिवनि सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	007335	मैसर्स अल-हरामेन प्राईवेट लिमिटेड
93.	024011	मैसर्स वी.एम.आर.एल. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
94.	025556	मैसर्स अवतार पूंजीनिवेश प्राईवेट लिमिटेड
95.	004236	मैसर्स वी.एस.आर.पी. फिल्मस् प्राईवेट लिमिटेड
96.	050676	मैसर्स नेलटेक डॉटा सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	053319	मैसर्स आई डी ई एल एफ मीडिया टेक्नोलॉजिस लिमिटेड
98.	019786	मैसर्स स्टोनि कार्टर कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
99.	034065	मैसर्स मिल्लेनियम सी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	058311	मैसर्स साईबर स्ट्रीम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
101.	055013	मैसर्स नास्टीता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
102.	056610	मैसर्स बे डिजिटल नेटवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	055871	मैसर्स आर. आर. ग्लोबल मिनिरल इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	033742	मैसर्स तेलुगू टॉकिज.कॉम प्राईवेट लिमिटेड
105.	030197	मैसर्स कल्लम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
106.	040913	मैसर्स कोकानी फार्मसी प्राईवेट लिमिटेड
107.	020147	मैसर्स धना लक्ष्मी फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
108.	049800	मैसर्स जे एस एम टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
109.	002076	मैसर्स हिमसन इलैक्ट्रॉनिक्स इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
110.	019755	मैसर्स श्री कल्याण एग्रो सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
111.	031672	मैसर्स नाटको ड्रास एण्ड फाईन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
112.	003996	मैसर्स जुकेरटिक सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
113.	030191	मैसर्स स्वान कोटेड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
114.	054800	मैसर्स आल न्यू आई टी सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
115.	033881	मैसर्स चिनमुद्रा धारि सेक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
116.	024383	मैसर्स वेंगमाम्बा ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
117.	035330	मैसर्स इमरजेंट इन्फो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
118.	034314	मैसर्स अरून टेक सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
119.	040217	मैसर्स माधुरि सुगर एण्ड पॉवर जेन लिमिटेड
120.	040649	मैसर्स ट्रीब्यूट फार्मासियुटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
121.	040618	मैसर्स लाईटनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन प्राईवेट लिमिटेड
122.	053882	मैसर्स राजलोक प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
123.	054959	मैसर्स एम. ए. जी. सिक्कुरिटीज लिमिटेड
124.	018004	मैसर्स नवा भारत प्लोरिकल्चर लिमिटेड
125.	007724	मैसर्स रिचर्ला मार्केटिंग सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
126.	020551	मैसर्स केयेस कैमिंट लिमिटेड
127.	037978	मैसर्स डीजीपी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
128.	014948	मैसर्स नार्वेन कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
129.	034474	मैसर्स ई-फेस टेक्नोलॉजिस लिमिटेड
130.	005321	मैसर्स एम्प्रो कनफैक्शनरी प्राईवेट लिमिटेड
131.	043389	मैसर्स इन्वी टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
132.	047894	मैसर्स वीवीटी एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड
133.	052248	मैसर्स अभिषेक थर्मल पॉवर इण्डिया लिमिटेड
134.	007085	मैसर्स डी सी एल सिंथेटिक्स एण्ड कैमिकल लिमिटेड
135.	038612	मैसर्स वाइडे टेलिफिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
136.	028170	मैसर्स श्री कल्पातारु हर्बल कैम प्राईवेट लिमिटेड
137.	045800	मैसर्स हेच 20 पॉवरजेन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
138.	031268	मैसर्स हैदराबाद फ्रेश डेसर्ट प्राईवेट लिमिटेड
139.	030281	मैसर्स विभावरी एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड
140.	044676	मैसर्स वी एल सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
141.	016791	मैसर्स इण्डिकॉन इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
142.	045701	मैसर्स एस वी आर टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
143.	033035	मैसर्स हँयासाला एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
144.	044882	मैसर्स ओएक नेट प्राईवेट लिमिटेड
145.	046654	मैसर्स जेस्ट इन्फो प्राईवेट लिमिटेड
146.	050376	मैसर्स विसाखा बी होम्स प्राईवेट लिमिटेड
147.	040049	मैसर्स टेलिटेल् कम्प्युनिकेशन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
148.	003184	मैसर्स कल्लम होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
149.	012880	मैसर्स डेकॉन कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
150.	054506	मैसर्स स्वीफ्ट प्रीमियर आईटी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
151.	054030	मैसर्स सिऑनटेक आईटी प्राईवेट लिमिटेड
152.	054951	मैसर्स जिलॉट सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
153.	040953	मैसर्स आर पी एम लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
154.	010037	मैसर्स के. के. डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
155.	003482	मैसर्स एम एल सॉफ्टवेयर पार्क्स प्राईवेट लिमिटेड
156.	027930	मैसर्स देवुलपल्ली पब्लिकेशन्स लिमिटेड
157.	044463	मैसर्स अवार्डन टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
158.	031782	मैसर्स सुकेतु कम्पोनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
159.	044570	मैसर्स आनन्दी स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
160.	047869	मैसर्स सदर्न स्पैस फूड लॉन्जेस प्राईवेट लिमिटेड
161.	055347	मैसर्स रास्सार सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड

शशि राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

हैदराबाद, दिनांक 18 मई 2011

सं. आर.ओ.सी./560(5)/ईईएस-2011/वीएसजे/1-135--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	020273	मैसर्स इन्टर वॉर्ल्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	045711	मैसर्स विक्टर एग्री एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड
3.	044090	मैसर्स विक्टर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
4.	045720	मैसर्स ब्रामाराम्बा शेयर कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
5.	021546	मैसर्स विजयानगरम कम्प्यूनिक्शन प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
6.	027435	मैसर्स एस. आर. मार्केटिंग रिट्रैडिंग प्राईवेट लिमिटेड
7.	003856	मैसर्स हिंद हाई वैक्यूम (हैदराबाद) प्राईवेट लिमिटेड
8.	035466	मैसर्स सिद्धी कटिंग टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	029046	मैसर्स किट कम्प्यूटर प्राईवेट लिमिटेड
10.	050708	मैसर्स सी वी मुवीज प्राईवेट लिमिटेड
11.	026205	मैसर्स आईशु हाऊसिंग लिमिटेड
12.	035757	मैसर्स ई-वेव टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
13.	002365	मैसर्स टसोका पैराफिन्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	005297	मैसर्स सतीश कुमार एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड
15.	014407	मैसर्स काबर्सेन्स कैमिकल्स लिमिटेड
16.	041916	मैसर्स जाकाना सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
17.	038002	मैसर्स स्वाति बायो एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
18.	053902	मैसर्स आर वी के होम्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	047127	मैसर्स स्मार्ट रियल्टर्स सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
20.	043100	मैसर्स सर्वत्रा सिक्यूरिटी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
21.	057375	मैसर्स बी बील्ड होम्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
22.	037943	मैसर्स कपिला प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	051533	मैसर्स वेंकट साई श्री हर्षा प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	056725	मैसर्स सी वी आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	056995	मैसर्स रिस्तायस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	006938	मैसर्स मैचलैस बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	012816	मैसर्स जिनिंसिस कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	058430	मैसर्स शास्ता जी आर पी पैप्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
29.	015616	मैसर्स सुवर्णा एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	043332	मैसर्स सिरि फ्यूल ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
31.	012027	मैसर्स नरेन इण्डस्ट्रियल गैसेस प्राईवेट लिमिटेड
32.	052350	मैसर्स एनियो टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
33.	053581	मैसर्स टाइगरफिश रिवर टूल्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	04114	मैसर्स हलसियोन कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	022146	मैसर्स जेन एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड
36.	041140	मैसर्स श्रीनिधि स्वीट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
37.	018212	मैसर्स वेंकटेश्वरा रियल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	041993	मैसर्स अडापाला इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
39.	013548	मैसर्स ऑरटेक फार्म प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	052380	मैसर्स कन्वर्टज आई टी एण्ड टेलिकॉम प्राईवेट लिमिटेड
41.	047121	मैसर्स श्री वेंकटा सत्यानारायणा कॉटन स्पिन्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	035959	मैसर्स टेलिस्वाप कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	030753	मैसर्स प्रगति पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	048425	मैसर्स पालाजो होटेल्स एण्ड रिजार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	010084	मैसर्स चुनुपाटी टायर्स एण्ड रबर्स प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	020079	मैसर्स राम देव स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
47.	033769	मैसर्स कयट्स.कॉम प्राईवेट लिमिटेड
48.	033505	मैसर्स ब्रिग्स इंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिस डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
49.	047089	मैसर्स कौशिक होस्पीटैलिटी एण्ड कैटरिंग सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
50.	045201	मैसर्स रेड्डी मैरिज ब्यूरो प्राईवेट लिमिटेड
51.	030737	मैसर्स वेन्सार पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	029317	मैसर्स के.आर.एल. एग्रो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	016931	मैसर्स अन्नापूर्णा बाटलिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
54.	033628	मैसर्स मेट्रोबिट टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
55.	051780	मैसर्स सिरी कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	053639	मैसर्स पार्स एजुकेशनल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
57.	034388	मैसर्स पी. वी. के. सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	030681	मैसर्स काशको टेक्नोलॉजिस लिमिटेड
59.	032489	मैसर्स लक्ष्मी अनालिटिकल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
60.	044995	मैसर्स वी एम आर मिडिको स्टाफिंग प्राईवेट लिमिटेड
61.	053832	मैसर्स वी आर के मैनेजमेंट कन्सल्टेंसी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
62.	043563	मैसर्स लक्ष्मी चैतन्या हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
63.	052192	मैसर्स कोनेक्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
64.	022142	मैसर्स साईबर एक्वाटेक प्राईवेट लिमिटेड
65.	041516	मैसर्स जी. एस. एस. एपैरल प्राईवेट लिमिटेड
66.	056352	मैसर्स जैनिकसट कैरियर्स ट्रेनिंग सेन्टरस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
67.	023590	मैसर्स न्यूक्रास वासिन लैबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
68.	020769	मैसर्स खाम्मांम कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
69.	028482	मैसर्स अरमान एयरवेस लिमिटेड
70.	053386	मैसर्स ग्राण्ड ऑटोमोबाईल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
71.	049450	मैसर्स चेक सिस्टम्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
72.	038462	मैसर्स अटरिजोना फार्म्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
73.	046453	मैसर्स रम्स अकाशा टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
74.	044867	मैसर्स क्रैस्ट कामोडिटीस प्राईवेट लिमिटेड
75.	034367	मैसर्स फोकस नेटवर्क लिमिटेड
76.	031037	मैसर्स राजेश टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
77.	055196	मैसर्स सत्यादेव सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	021442	मैसर्स प्रतिमा बायोटेक एक्सपेरिम्स लिमिटेड
79.	035137	मैसर्स एपी रिक्लूट.कॉम प्राईवेट लिमिटेड
80.	044255	मैसर्स एल जी बी कन्सल्टेंसी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
81.	021003	मैसर्स ईको साल्व (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
82.	009549	मैसर्स लीडर रबर्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	048676	मैसर्स प्रदिता इन्फो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	036224	मैसर्स आर्चरविजन्स ह्यूमन रिसोर्सिस एण्ड इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
85.	049575	मैसर्स स्टीनसन मोलिकुलार वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड
86.	033459	मैसर्स उन्नती इन्फोटेक सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
87.	052636	मैसर्स एक्वेरियस शेल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
88.	039963	मैसर्स प्रिंटर टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
89.	039828	मैसर्स ए आर पेटेन्ट ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
90.	055730	मैसर्स सिक्सत एंगिल इंडियर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
91.	055676	मैसर्स कुकुनूर कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	119.	024217	मैसर्स वेंकटेश्वरा ऑयरन कार्स्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	054813	मैसर्स आंजनेया एग्री इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	120.	024691	मैसर्स वज्रीनि फार्म कैमिकल्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
93.	043644	मैसर्स डी. ए. कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	121.	008124	मैसर्स सिद्धि विनायक सिल्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
94.	008561	मैसर्स बाजल एग्री इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	122.	044470	मैसर्स हरितास हैल्थ सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
95.	056387	मैसर्स नियो टेरा सॉफ्ट सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	123.	037912	मैसर्स एक्वारा इन्फोटेक लिमिटेड
96.	051558	मैसर्स पीरला प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	124.	035745	मैसर्स ईसी काम्मोन्स सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
97.	029459	मैसर्स सुप्रा इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड	125.	051778	मैसर्स उषोदया होमोटोलॉजी हास्पिटल प्राईवेट लिमिटेड
98.	055781	मैसर्स प्राईम इन्फोकॉम सॉफ्टवेयर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	126.	022339	मैसर्स विज़न इन्फोरमैटिक्स लिमिटेड
99.	016597	मैसर्स एलमार एक्वा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	127.	043596	मैसर्स स्कैटेक ऑटोमेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	013890	मैसर्स ईस्ट कोस्ट प्लान्टेन्स लिमिटेड	128.	050347	मैसर्स कोसमो इण्डिया इन्फोकॉन प्राईवेट लिमिटेड
101.	015896	मैसर्स मार्क जियोमेटोसियन कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	129.	014644	मैसर्स ट्वीनसिटी शेयर शॉप्पी प्राईवेट लिमिटेड
102.	041354	मैसर्स अरिसा कन्सल्टिंग एण्ड टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड	130.	043535	मैसर्स बी आर जी पॉवर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	029793	मैसर्स सिम्हाभल बिल्डमार्ट प्राईवेट लिमिटेड	131.	056381	मैसर्स टेल्लापुर टेक पार्क प्राईवेट लिमिटेड
104.	042022	मैसर्स एक्सप्रो इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	132.	046382	मैसर्स टेल्लापुर टऊन सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
105.	039918	मैसर्स श्रेष्ठ नालेज कॉर्प प्राईवेट लिमिटेड	133.	017821	मैसर्स पेरिफिक एयर एण्ड कारगो प्राईवेट लिमिटेड
106.	056286	मैसर्स श्री लक्ष्मी गणपति एग्री एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	134.	056047	मैसर्स सुमति हाई-टेक कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
107.	050346	मैसर्स ई. जे. मेटफैब इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	135.	014062	मैसर्स ओरिएन्टल हाई सीस फिशरीज लिमिटेड
108.	027132	मैसर्स ट्रान्स लॉजिकल सोल्यूशन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड			
109.	028747	मैसर्स गीतांजली एजुकेशनल इंस्टीच्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड			
110.	052912	मैसर्स अमेजिंग इन्नोवेटिव फूड्स प्राईवेट लिमिटेड			
111.	032775	मैसर्स कोया सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स इण्डिया लिमिटेड			
112.	048964	मैसर्स सोल ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड			
113.	051416	मैसर्स एफमाक्स टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड			
114.	030563	मैसर्स जयवी मोटॉर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड			
115.	009607	मैसर्स टाईटन कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड			
116.	023914	मैसर्स के एम मीडिया प्राईवेट लिमिटेड			
117.	032985	मैसर्स आरूद्रा इन्टरएक्टिव प्राईवेट लिमिटेड			
118.	028850	मैसर्स मोनि पिट्रोटेक (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड			

बी. संतोषी जागीरदार  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स रेयान फिनलीज़ मद्रास लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 मई 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रेयान फिनलीज़ मद्रास लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

बी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मंदवली बेनीफिट फण्ड लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 मई 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मंदवली बेनीफिट फण्ड लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार

तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स पोस्टालिया इन्टरफ्रैन्क प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 मई 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पोस्टालिया इन्टरफ्रैन्क प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स दान्य लक्ष्मी फ्लोरी हाउस लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 मई 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दान्य लक्ष्मी फ्लोरी हाउस लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एस्सार सौकाम्प्लाट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 मई 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एस्सार सौकाम्प्लाट

लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स गजलक्ष्मी ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 मई 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गजलक्ष्मी ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. द  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स इन्टीर्यूट ऑफ बिजनेस एक्जिक्यूटीव्स एण्ड प्रोफेशनल मैनेजर्स  
विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 मई 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इन्टीर्यूट ऑफ बिजनेस एक्जिक्यूटीव्स एण्ड प्रोफेशनल मैनेजर्स का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. द  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स श्री भारतीय चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 मई 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री भारतीय चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 31st May 2011

No. A-38014/01/2011-Admn.II—Consequent upon attaining the age of superannuation, Sh. Nihal Singh, Superintendent (DP) in the Office of the Union Public Service Commission stands retired from Government Service with effect from the afternoon of 31.05.2011 (31st May, 2011).

K. M. SASIDHARAN  
Under Secy. (Admn.)

## CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 30th May 2011

No. 2/31/08-Admn./130804—The Competent Authority hereby appoints Shri Raj Kumar, Assistant in the Commission as Section Officer on ad hoc basis in the Pay Band of Rs. 9,300–34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 31st May, 2011 for a period of six months or till further orders, whichever is earlier.

2. His appointment to the post of Section Officer is purely on ad hoc basis under Rule 4(1)(b) of the CVC (Staff) Rules, 2007 as amended from time to time and will not bestow upon him any claim for regular appointment.

R. N. NAYAK  
Officer on Special Duty (Admn.)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## DIRECTORATE GENERAL

## (CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE)

New Delhi-110003, the 31st May 2011

No. E-38015(4)/1/MSA/2011/Pers.I/145—Consequent upon appointment in Junior Scale of J&K Administrative Service on the basis of Jammu and Kashmir Public Service Commission Examination 2009, the President is pleased to accept the Technical Resignation of following Gazetted Officers of CISF with effect from the dates as shown against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer & Rank	Name of CISF Unit/Office	Date of charge relinquishment
1.	S/Sh. Naser Ali, Dy Commandant/ Exe (Local Rank)	NSCBI Airport, CISF Kolkata	25.04.2011 (AN)
2.	Malik Suhail Ahmed, Asstt. Commandant/Exe	NDRF Bn CISF Arakkonam	28.04.2011 (AN)

RAJEEV PANT  
Asstt. Inspector General/Pers.

## INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

## OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT

## (CENTRAL EXPENDITURE)

New Delhi-110002, the 31st May 2011

No. Admn.I/O.O. No. 52—Consequent upon attaining the age of superannuation, Smt. Krishna Soni, Senior Audit Officer (Rs. 15,600–39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/-) of this Office retired from Government Service on 30.04.2011 (A/N).

2. Her date of birth is 05.04.1951 and she joined Government Service on 10.10.1973.

Sd./- ILLEGIBLE  
Dy. Dir. (Admn.)

No. Admn.I/O.O. No. 53—Consequent upon attaining the age of superannuation, Smt. Urmila Devi, Senior Audit Officer (Rs. 15,600–39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/-) of this office is retiring from Government Service on 31.05.2011 (A/N).

2. Her date of birth is 17.05.1951 and she joined Government service on 15.09.1972.

Sd./- ILLEGIBLE  
Dy. Dir. (Admn.)

## MINISTRY OF LABOUR &amp; EMPLOYMENT

## (LABOUR BUREAU)

Shimla-171004, the 31st May 2011

No. 5/1/2011-C.P.I.—The All India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 2001 = 100 increased by 1 point and stood at 186 (one hundred & eighty six) for the month of April, 2011.

S. S. NEGI  
Dir.

## MINISTRY OF TEXTILES

## (OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS)

New Delhi, the 2nd June 2011

No. A-11025/1/2009-DCHL/Estt.II—The President is pleased to appoint Shri Ravindra Kommu as Assistant Director Gr.I (Weaving) a General Central Service Group-A Gazetted post in the Pay Scale of Rs. 15,600–39,100/- (in PB-3) + Rs. 5,400/- Grade Pay in the Weavers' Service Centre, Imphal w.e.f. 19.05.2011 (Forenoon) until further orders.

PRITI KUMAR  
Dy. Development Commissioner (Handlooms)

MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM  
ENTERPRISES

HEAVY WATER BOARD

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER

Mumbai-94, the 31st May 2011

New Delhi, the 25th May 2011

No. HWB/R/5(2)-CO/2011/498—The Chief Executive, Heavy Water Board (Central Office) appoints Smt. Kosigi Shroff Vijayalaxmi, Assistant Accounts Officer, Heavy Water Board (Central Office), Mumbai to officiate as Accounts Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 5,400/-, with effect from 31.05.2010 (Forenoon) to 18.01.2011 (Afternoon).

No. A-19018/551/81-A(G)—On attaining the age of superannuation, Shri S. K. Patra, Director (Chemical), Micro, Small & Medium Enterprises-Development Institute, Agartala under Micro, Small & Medium Enterprises Development Organisation retired from Government Service on the afternoon of 30.04.2011.

K. V. PILLAI  
Administrative Officer

MAHINDER SINGH  
Dy. Dir. (Admn.)

No. A-19018/582/82-A(G)—On attaining the age of superannuation, Shri Dibyendu Bikash Datta, Deputy Director (G&C), Micro, Small & Medium Enterprises Development Institute, Kolkata under Micro, Small & Medium Enterprises Development Organisation retired from Government Service on the afternoon of 31.01.2011.

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR  
EXPLORATION AND RESEARCH

Hyderabad-500629, the 30th May 2011

No. AMD-16/1/95-Rectt/Vol.IV/3122—The Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Department of Atomic Energy, hereby appoints Shri Y. Madhusudan, Assistant (Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,200/-) in Nuclear Fuel Complex Hyderabad to officiate as Assistant Personnel Officer (Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/-) in Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Southern Region, Bengaluru with effect from the forenoon of 13.05.2011 until further orders.

MAHINDER SINGH  
Dy. Dir. (Admn.)

P. MOHAN BABU  
Chief Administrative & Accounts Office

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY  
(DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES)

Mumbai-400094, the 31st May 2011

No. DPS/07019/Rectt/2404—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy, hereby appoints Shri Thomas George (Emp. No. 459), Sr. Soterkeeper, Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,200/-, Central Stores Unit, DPS, Mumbai, in the post of Assistant Stores Officer in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/-, w.e.f. the forenoon of 6th May, 2011 in Indore Regional Stores Unit, DPS, Indore, until further orders.

CATHERINE RAJ  
Administrative Officer-III

The 1st June 2011

No. AMD-16/1/2002-Rectt/Vol.IV/3150—The Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Department of Atomic Energy, hereby appoints Shri Yoges Ganpat Dalvi, Assistant Security Officer-A (Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,200/- in DCS&EM, Mumbai to officiate as Security Officer (Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/-) in Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Northern Region, New Delhi with effect from the forenoon of 12.05.2011 until further orders.

P. MOHAN BABU  
Chief Administrative & Accounts Officer

No. DPS/07019/Rectt/2405—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy, hereby appoints Smt. Radha Hariharan (Emp. No. 186), Sr. Soterkeeper, Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,200/-, Central Stores Unit, DPS, Mumbai, in the post of Assistant Stores Officer in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/-, w.e.f. the forenoon of 9th May, 2011 in Stores Unit, DPS, Heavy Water Plant, Baroda, until further orders.

CATHERINE RAJ  
Administrative Officer-III

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT  
(WORKS DIVISION)

New Delhi, the 27th May 2011

No. 27-ADG/S(12)/2011-EC-II/EW-I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri R. B. Singh (Ram Bilas Singh), Addl. Director General, Central Public Works

Department, New Delhi, retires from Government Service with effect from 31.05.2011 (AN).

J. S. RAWAT  
Under Secy.

---

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Anand Couriers Private Limited

New Delhi-110019, the 22nd February 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00017—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Anand Couriers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Verzonee Manpower Services Private Limited

New Delhi-110019, the 14th March 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00144—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Verzonee Manpower Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sanjeev Apparels Private Limited

New Delhi-110019, the 4th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00013—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sanjeev Apparels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nicholson Westerman Design Centre Private Limited

New Delhi-110019, the 4th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00031—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nicholson Westerman Design Centre Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shield Biotech Private Limited

New Delhi-110019, the 4th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00024—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shield Biotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kallan Hospitalitys Private Limited

New Delhi-110019, the 5th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00739—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kallan Hospitalitys Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Manhattan Buildcon Private Limited

New Delhi-110019, the 10th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00399—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Manhattan Buildcon Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Modern Agro Research Farms Private Limited

New Delhi-110019, the 20th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00208—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Modern Agro Research Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sun I. T. Services Private Limited

New Delhi-110019, the 23rd May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00088—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sun I. T. Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Wonder Engineering Industries Private Limited

New Delhi-110019, the 25th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00132—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Wonder Engineering Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Global Infraheight Limited

New Delhi-110019, the 25th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00188—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Global Infraheight Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. ATC Multiproducts Trading Private Limited

New Delhi-110019, the 25th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00170—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. ATC Multiproducts Trading Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Luxury Accommodation and Services Private Limited

New Delhi-110019, the 25th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00152—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Luxury Accommodation and Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. SBS Exim Private Limited

New Delhi-110019, the 1st June 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00251—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. SBS Exim Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. SSB Garments Private Limited

New Delhi-110019, the 1st June 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00247—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. SSB Garments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. ADP Clothing Company Private Limited

New Delhi-110019, the 1st June 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00268—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. ADP Clothing Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. SDP Clothing Company Private Limited

New Delhi-110019, the 1st June 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00257—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. SDP Clothing Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. SSB Clothing Company Private Limited

New Delhi-110019, the 1st June 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00235—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. SSB Clothing Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

New Delhi-110019, the 6th June 2011

No. ROC/Delhi/560(5)EES-2011/Part-II/2385—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	149053	M/s. Athena Realtors Private Limited
2.	118649	M/s. Summit Insurance Agents Private Limited
3.	112537	M/s. Happy Home Apartments Private Limited
4.	023224	M/s. Spectrum Communications Private Limited
5.	050632	M/s. Fabcot (India) Limited
6.	129882	M/s. Safe and Secure Boxes Packaging Private Limited
7.	132430	M/s. K. M. Computech Technology Private Limited
8.	097762	M/s. S. K. A. Metal (India) Private Limited
9.	146873	M/s. Chawla Hotels and Constructions Private Limited
10.	161026	M/s. Korin Trading Private Limited
11.	130205	M/s. Elxire BPO Private Limited
12.	075829	M/s. Ellenabad Finvest Private Limited
13.	102799	M/s. MTG Publishing Private Limited

1	2	3
14.	168396	M/s. Rishi Infradevelopers Private Limited
15.	032882	M/s. Sai Drishti Chits Private Limited
16.	168395	M/s. R. S. Infrarealtors Private Limited
17.	164879	M/s. Mansa Equity and Financial (India) Private Limited
18.	120034	M/s. Bhoruka Knits Private Limited
19.	034328	M/s. Elpar Chits Fund Private Limited
20.	091412	M/s. Accurate Caps Private Limited
21.	156954	M/s. Shreyas Infosol Private Limited
22.	148467	M/s. Chimes Hospitality Private Limited
23.	149996	M/s. Hastigiri Intellectual Properties Services Private Limited
24.	165681	M/s. Artsmart Management Private Limited
25.	139582	M/s. Seal Engicons Private Limited
26.	050087	M/s. Atlantic Estates Private Limited
27.	166501	M/s. Proactive Infotech Private Limited
28.	016875	M/s. Atul Maschinen Tool Fabric Private Limited
29.	158747	M/s. Pratibh Engineering Private Limited
30.	152925	M/s. Punchsheel Media Private Limited
31.	083734	M/s. Girraj Mutual Benefits Limited
32.	063278	M/s. Prestige Apartments Private Limited
33.	033092	M/s. Vap Tribology Private Limited
34.	101363	M/s. Mags International Private Limited
35.	169766	M/s. Gatiman Buildcon Private Limited
36.	085585	M/s. Satya Technobuild Private Limited
37.	168069	M/s. Right Infraconbuild Private Limited
38.	168068	M/s. Right Land Way Private Limited
39.	102270	M/s. Red Eagle Trading Private Limited
40.	058305	M/s. Personal Point Care Limited
41.	168071	M/s. Right Promoters Private Limited
42.	136073	M/s. Svam Subscription and IT Enables Services Private Limited
43.	119935	M/s. Dwarikadhish Insurance Agents Private Limited
44.	064777	M/s. Genuene Securities Private Limited
45.	007435	M/s. Vikas Industrial Investment Company of India Limited
46.	061318	M/s. Shmbhavi Enterprises Private Limited

1	2	3
47.	128602	M/s. KMR Infotech Private Limited
48.	149288	M/s. Together Buildtech Private Limited
49.	111252	M/s. Utthan Infotech Private Limited
50.	087369	M/s. Samtel Display Limited
51.	153660	M/s. Tel Properties Private Limited
52.	078343	M/s. Western Roadlines Private Limited
53.	083145	M/s. Koshika Telesis Private Limited
54.	008082	M/s. Agro Engineering Products (Delhi) Private Limited
55.	113175	M/s. One Stop Consultancy Private Limited
56.	088043	M/s. Bimbrah Electronics Private Limited
57.	169112	M/s. Ambey Infracon Private Limited
58.	143664	M/s. B. J. Apparels Private Limited
59.	163819	M/s. Ascendent Infotech Services Private Limited
60.	106419	M/s. X-Pert Tools (India) Private Limited
61.	084804	M/s. Saloni Finlease Private Limited
62.	139746	M/s. Optimum Projects Private Limited
63.	117471	M/s. Konkan Remedies Private Limited
64.	148946	M/s. B. V. K. Impex Private Limited
65.	075686	M/s. Aayushi Fininvest Private Limited
66.	100115	M/s. Sai Cargo Movers Private Limited
67.	162623	M/s. Aquarius Assets Services Private Limited
68.	144089	M/s. Sky City Developers Private Limited
69.	166064	M/s. Sarvatra Health Care Private Limited
70.	139825	M/s. Soul Herbals Private Limited
71.	037364	M/s. Apex Movies and Entertainment Private Limited
72.	133621	M/s. D. N. Design Studio Private Limited
73.	152879	M/s. L. R. Hotels Private Limited
74.	148402	M/s. Platinum Quest Trade Services Private Limited
75.	160855	M/s. SMC Print & Pack Private Limited
76.	146725	M/s. Elixir Expovision Private Limited
77.	146730	M/s. Mammon Impex Private Limited
78.	012982	M/s. Jupiter Engineering Works Private Limited
79.	054805	M/s. Hosepice Chit Private Limited
80.	131627	M/s. Anushree Clothing Private Limited

1	2	3	1	2	3
81.	080011	M/s. Honey Bee Natural Products (Haryana) Limited	111.	061501	M/s. Sun-ford Overseas (India) Private Limited
82.	052609	M/s. Ram Ganga Computers Private Limited	112.	024547	M/s. High Tech Promoters Private Limited
83.	171704	M/s. HRC Horizons Constructions Private Limited	113.	087722	M/s. Many Print-O-Pack Private Limited
84.	080341	M/s. Snow view Resorts Private Limited	114.	162010	M/s. Ghitora Estate Consultants Private Limited
85.	050926	M/s. Pro Chits Private Limited	115.	017249	M/s. Matsyka Expors Private Limited
86.	139261	M/s. Sage Camps and Resorts Private Limited	116.	118329	M/s. Cubic Marketing Private Limited
87.	026545	M/s. MCS Advertising and Marketing Private Limited	117.	117774	M/s. Aar Dee Fashions Private Limited
88.	103883	M/s. Pavan-Sut Stock Broking Services Private Limited	118.	067792	M/s. Anandsri Overseas Private Limited
89.	119994	M/s. Intellisys Tech Solution Private Limited	119.	096142	M/s. Ridar Overseas Private Limited
90.	127499	M/s. Niyama Design Private Limited	120.	071501	M/s. AKG Mifcon Limited
91.	029448	M/s. Prasnath Agencies Private Limited	121.	089063	M/s. New Age Wholeseller Private Limited
92.	174353	M/s. HSM Sports Motto Private Limited	122.	116596	M/s. Avanti Fashions Private Limited
93.	107297	M/s. Esoft Visual (India) Private Limited	123.	037032	M/s. Haryana Buildtech Private Limited
94.	037054	M/s. Dynasty Buildtech Private Limited	124.	083150	M/s. Himalayan Bell Private Limited
95.	037046	M/s. Skyheigh Aprtments Private Limited	125.	103704	M/s. Oasis Tradex India Private Limited
96.	109094	M/s. Team Cube E-Services Private Limited	126.	126337	M/s. VAG Outsourcing Solutions Private Limited
97.	066801	M/s. International Commodity and Financial Services Private Limited	127.	031455	M/s. Legrand Lumanaires Private Limited
98.	103341	M/s. Soldiers Security and Allied Services Private Limited	128.	066078	M/s. Marwaha Medical Centre Private Limited
99.	146723	M/s. Festal Exim Private Limited	129.	136420	M/s. Ech Ess Interiors Private Limited
100.	062737	M/s. Exult Securities Private Limited	130.	132185	M/s. K. T. Consultants Private Limited
101.	120309	M/s. Vatan Impex Private Limited	131.	012547	M/s. Ruchi Enterprises Private Limited
102.	041099	M/s. D. K. Credits Private Limited	132.	157519	M/s. Vithal Sai Sharnam Developers Private Limited
103.	037044	M/s. Rajdhani Buildtech Private Limited	133.	105517	M/s. Shubh Zevar Private Limited
104.	069192	M/s. Gudpur Mushrooms Private Limited	134.	073834	M/s. Decent Garments Private Limited
105.	093868	M/s. Mann Automotives Private Limited	135.	112526	M/s. Ko and in Marketing Private Limited
106.	065633	M/s. Financial and Infrastructure Services India Private Limited	136.	093005	M/s. First Venture Farms Private Limited
107.	096583	M/s. Ashe and Associates Private Limited	137.	131370	M/s. MS Outsourcing Solutions Private Limited
108.	173578	M/s. Hommarts Export Private Limited	138.	078826	M/s. Marwah Sugar Agencies Private Limited
109.	105762	M/s. Horace Trading Private Limited	139.	130055	M/s. W LG Info Systems Private Limited
110.	012937	M/s. Arora Estates Private Limited	140.	041670	M/s. Vision Surgicals Private Limited
			141.	070218	M/s. Air Seven Seas Transport Logistics (India) Private Limited
			142.	128550	M/s. Likquest Secure Private Limited

1	2	3	1	2	3
143.	053734	M/s. J. B. Super Carriers Private Limited	169.	148001	M/s. Chandra Durobuild Private Limited
144.	074783	M/s. Previs Investment and Finance Company Private Limited	170.	156785	M/s. Segue Technologies Private Limited
145.	170729	M/s. Umkal Helthcare Ventures Private Limited	171.	022135	M/s. Sahayak Chit Fund Private Limited
146.	132152	M/s. Today Hotels Maharashtra Private Limited	172.	110914	M/s. Netsharks Technologies Private Limited
147.	038524	M/s. Titan Export and Import Private Limited	173.	112507	M/s. Tairiku Tours and Leisure Private Limited
148.	015033	M/s. Chinara Electronics and Electricals Private Limited	174.	136620	M/s. CLD Consulting Private Limited
149.	163277	M/s. 121 Media Private Limited	175.	027685	M/s. Shivalik Promoters and Builders Private Limited
150.	012750	M/s. P C Sharma and Company Private Limited	176.	114879	M/s. RJB Music Private Limited
151.	098401	M/s. Nishu Trading Company Private Limited	177.	024799	M/s. Jyoti Optics Private Limited
152.	144635	M/s. Jack Restaurants Private Limited	178.	110906	M/s. Infovision Merchandising Services Private Limited
153.	129373	M/s. Erlang Information Services Private Limited	179.	108933	M/s. RBM Construction (India) Private Limited
154.	149598	M/s. Subscribe Build Tech Private Limited	180.	131768	M/s. Kisna Resq and Adventure Private Limited
155.	154265	M/s. Today Hotels (Chandigarh) Private Limited	181.	026015	M/s. Garhwal Refractories Private Limited
156.	150668	M/s. K. K. Spices Private Limited	182.	015657	M/s. P.U. Soles Private Limited
157.	073936	M/s. Manglam Cables (India) Private Limited	183.	062415	M/s. Alaknanda Financial Services and Management Consultancy Private Limited
158.	139554	M/s. K J O Marketing and Retail Trading Private Limited	184.	098639	M/s. Sukhsheel Engineers and Consultants (India) Private Limited
159.	114418	M/s. PMC Overseas Consultants Private Limited	185.	107989	M/s. Kriti Transcription Private Limited
160.	110825	M/s. Money Spinners Chits Private Limited	186.	099884	M/s. Sona Gupta Construction Private Limited
161.	036654	M/s. Pradeep Packagings Private Limited	187.	129908	M/s. VSAP Impex Private Limited
162.	112558	M/s. Macaw Breweries and Distilleries Private Limited	188.	159703	M/s. Chekout Publications Private Limited
163.	150142	M/s. Search Build Tech Private Limited	189.	122598	M/s. DCVP Marketing Private Limited
164.	108668	M/s. Leibnetz Technologies Private Limited	190.	046478	M/s. Rainbow Packers Private Limited
165.	160778	M/s. M.B.M. Exim Private Limited	191.	141291	M/s. Envy Designs Private Limited
166.	087109	M/s. Suraksha Mutual Benefits Limited	192.	058576	M/s. Lectrodryer India Private Limited
167.	149947	M/s. Aashiyana Strongbuild Private Limited	193.	157236	M/s. Today Hotels (Noida) Private Limited
168.	109370	M/s. Symphony Tours and Forex Private Limited	194.	020964	M/s. Will Imports and Exports Private Limited
			195.	083202	M/s. Manikaran Finlease Private Limited
			196.	032176	M/s. Majal Chits Private Limited

1	2	3	1	2	3
197.	152880	M/s. Rajan Infotech Private Limited	227.	091093	M/s. Paragon Educations Private Limited
198.	160910	M/s. Peppermint Entertainment Private Limited	228.	111958	M/s. Maitreyi Estate Private Limited
199.	119640	M/s. Delhi Lace Mills Private Limited	229.	031924	M/s. Krishna Progressive Developers Private Limited
200.	174653	M/s. Lotus Newage Land Developers Private Limited	230.	105358	M/s. Infostar Solution Private Limited
201.	108869	M/s. Kler Brothers Private Limited	231.	077994	M/s. Achal Builders Private Limited
202.	044271	M/s. M C Exports Private Limited	232.	029735	M/s. Nebha Builders and Developers Private Limited
203.	065227	M/s. Dhingras Finmen Private Limited	233.	011914	M/s. Cool Chits and Trading Private Limited
204.	037501	M/s. Deven Hotels Private Limited	234.	094305	M/s. S. R. Infopark Private Limited
205.	128490	M/s. Grownup Construction Private Limited	235.	093666	M/s. Excellent Carrying & Forwarding Agencies Private Limited
206.	124283	M/s. Sun Global Garments Private Limited	236.	055331	M/s. Shree Narayan Maison De Commerce Private Limited
207.	089902	M/s. Rasashala Aushadhashram (Gondal) Private Limited	237.	089441	M/s. Medworth Pharmaceuticals Private Limited
208.	115366	M/s. Xtradesoft (India) Limited	238.	076681	M/s. Sanman Portfolio Private Limited
209.	035860	M/s. Noida Leasing and Finance Private Limited	239.	131776	M/s. Sehyog Education Academy Private Limited
210.	115051	M/s. Vaish Impact Clothing Private Limited	240.	127697	M/s. Elfsys Embedded Solutions Private Limited
211.	128409	M/s. Beatnik Information Technologies Private Limited	241.	057213	M/s. P. R. Metals Private Limited
212.	117898	M/s. Pragmatic Vision Private Limited	242.	093330	M/s. SPS Management Consultants Private Limited
213.	125199	M/s. Technow Electronics India Private Limited	243.	174976	M/s. Vedic Estates Private Limited
214.	013757	M/s. Pawaskar Builders Private Limited	244.	156637	M/s. Tyratech (India) Private Limited
215.	153438	M/s. Acromed Healthcare Private Limited	245.	023258	M/s. Aspeq Compressors Private Limited
216.	094933	M/s. Hi-Tech Carbide Tools Private Limited	246.	046940	M/s. Om Singhla Polymers Private Limited
217.	154296	M/s. Vector Realtors Private Limited	247.	168611	M/s. Austrian Indo Merchandising Private Limited
218.	104183	M/s. S. V. Construction India Private Limited	248.	124292	M/s. Shakal Exim Private Limited
219.	117009	M/s. Perfect Project Management Consultants Private Limited	249.	169776	M/s. Speed Buildcon Private Limited
220.	175547	M/s. Trippundit Travels Private Limited	250.	143604	M/s. Ayez Omega Infoway Private Limited
221.	143565	M/s. M. R. Infrastructure Private Limited	251.	031315	M/s. Wincab Electricals Private Limited
222.	102320	M/s. Heritage Voyages Private Limited	252.	065437	M/s. Telecom Informatics (India) Private Limited
223.	149329	M/s. S. N. Constructsoft Private Limited	253.	026190	M/s. Citizen Lifts Private Limited
224.	128862	M/s. Satyak Constructions Private Limited	254.	106626	M/s. E Meditech Dot Com Private Limited
225.	005347	M/s. Rambha Exports Private Limited	255.	009671	M/s. Amalgamated Consultants Private Limited
226.	007912	M/s. Natural Herbs Private Limited			

1	2	3
256. 123241	M/s. Joseco Youth Developement Private Limited	
257. 106190	M/s. Frame by Frame Entertainment Company Private Limited	
258. 119691	M/s. Bhagya Chit Fund Private Limited	
259. 034606	M/s. GPS Himanshu Chit Fund Private Limited	
260. 037881	M/s. Pilot Plants India Private Limited	
261. 107354	M/s. Destination Himalayan Tours (India) Private Limited	
262. 073291	M/s. Reliable Impex Limited	
263. 106594	M/s. Horizontal Drilling International (India) Private Limited	
264. 170939	M/s. Insignia Artwell (India) Private Limited	
265. 035573	M/s. Mirai Software Solutions Private Limited	
266. 018779	M/s. Selected Chit Fund Private Limited	
267. 110734	M/s. ENSR India Private Limited	
268. 024003	M/s. Ekta Chits Private Limited	
269. 056115	M/s. PMK Agro Private Limited	
270. 014525	M/s. Hats Eastern Travels Private Limited	
271. 113987	M/s. OTT Clothing Private Limited	
272. 144858	M/s. Blessing Infotech Private Limited	
273. 114306	M/s. Unidox Infotech Private Limited	
274. 113986	M/s. Paraphrase Clothing Private Limited	
275. 047209	M/s. Marvel Wires Private Limited	
276. 013802	M/s. Divya Marketing Company Private Limited	
277. 064075	M/s. Sea Solar Power (India) Limited	
278. 099055	M/s. Firefly Entertainment Private Limited	
279. 174439	M/s. Infovision HR Services Private Limited	
280. 142877	M/s. Margaret Ites Private Limited	
281. 154640	M/s. R K Pharmaceuticals Private Limited	
282. 084504	M/s. Webmaster Infotech Private Limited	
283. 042329	M/s. PAKT Overseas Private Limited	
284. 082357	M/s. Seemax Securities Limited	
285. 060468	M/s. Siddhartha Informatics Private Limited	
286. 134970	M/s. Richlook Impex Private Limited	

1	2	3
287. 140050	M/s. Maximus Developers Private Limited	
288. 144981	M/s. Arora P. P. Infotech Private Limited	
289. 082762	M/s. Golden Vacations (India) Private Limited	
290. 122888	M/s. Ashton E-Services Private Limited	
291. 152933	M/s. C & C Foods Private Limited	
292. 065075	M/s. Maya Manufacturers Private Limited	
293. 069571	M/s. Tamanna Overseas Private Limited	
294. 095333	M/s. JRG Marketing Private Limited	
295. 119424	M/s. Utilitarian IT Solutions Private Limited	
296. 120705	M/s. BAS Garments Private Limited	
297. 107644	M/s. Rhino Securitas India Private Limited	
298. 160029	M/s. Atlantic Nautical Crafts Private Limited	
299. 037494	M/s. Sun Royal Hospitality Private Limited	
300. 129199	M/s. Bizdirect Consultants Private Limited	
301. 036609	M/s. Bhavishya Buildcon Private Limited	
302. 117448	M/s. Guruchem Laboratories Private Limited	
303. 123273	M/s. Divya Ayurved Private Limited	
304. 093036	M/s. Twenty First Century Cosmetic Laser Centre Private Limited	
305. 113315	M/s. Etam Infotech Private Limited	
306. 134763	M/s. Winsum Dresses Private Limited	
307. 134762	M/s. Pure Life Apparels Private Limited	
308. 033313	M/s. Sudesh Hardware Private Limited	

P. L. MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Kanpur-208001, the 30th May 2011

No. LC/560(5)77—Notice is hereby given pursuant to  
sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the names of the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	026647	M/s. Dolce Apparels Private Limited
2.	018120	M/s. MS Pharmaceuticals Private Limited
3.	022839	M/s. C.M. Khandelwal Share Brokers Private Limited
4.	012985	M/s. Agra Carpets and Kelims Private Limited
5.	026432	M/s. Shri Devansh Nirman Private Limited
6.	011882	M/s. Kanpur Marketing Services Private Limited
7.	026491	M/s. Synergy Sales Network Private Limited
8.	029986	M/s. Aastha Computech Private Limited
9.	027350	M/s. Regalia Media Private Limited
10.	025500	M/s. Concept Circle Infosys Private Limited
11.	010961	M/s. S.N. Jain Steels Private Limited
12.	027239	M/s. Ayushi Kisan Automobiles Private Limited
13.	031890	M/s. Shaktiman Tubes and Pipes Private Limited
14.	020696	M/s. Kwaliti Leather Industries Private Limited
15.	033761	M/s. I.S.E.C. Education Private Limited
16.	006429	M/s. Ashwani Cement Industries Private Limited
17.	003778	M/s. Arkay (India) Private Limited
18.	024672	M/s. Angel Cure Private Limited
19.	010624	M/s. R.P. Agencies Private Limited
20.	031617	M/s. Maa Shakti Edibles Private Limited
21.	030026	M/s. Grand Steel Engineers Private Limited
22.	013690	M/s. Soumya Sales Private Limited
23.	027783	M/s. Tandoori Magazine Private Limited
24.	025359	M/s. B.S. Infosys Private Limited
25.	027601	M/s. Om Sri Sai Aashray Private Limited
26.	015526	M/s. Ravico Tanning Industries Private Limited

1	2	3
27.	023670	M/s. Vapi Marketing Private Limited
28.	025029	M/s. Pavna Auto Cables (India) Private Limited
29.	030838	M/s. Fin-Web Outsources Private Limited
30.	034203	M/s. C.T. Nirman (India) Private Limited
31.	013938	M/s. Vinay Sons Private Limited
32.	029281	M/s. Esvin Packaging Private Limited
33.	004725	M/s. Vorka Exports Private Limited
34.	030855	M/s. Radhey Radhey Foods Private Limited
35.	031121	M/s. Trendsetter Infrastructure and Resorts Private Limited
36.	022335	M/s. B.P.R. Cold Storage and Ice Factory Private Limited
37.	011395	M/s. Sonal Chit Fund Private Limited
38.	026775	M/s. Som Pradhan Foods Private Limited
39.	032248	M/s. Baansi Sheetgarh Private Limited
40.	012173	M/s. Mayank Transcore and Conductors Private Limited
41.	034825	M/s. Raadhey Krishna Retail (India) Private Limited
42.	030231	M/s. M.M. Travel Express (India) Private Limited
43.	008537	M/s. Abhishek Instalments Private Limited
44.	018957	M/s. Proactive Financial Services Limited
45.	009561	M/s. Batra Trading Company Private Limited
46.	003636	M/s. Box and Carton Private Limited
47.	029422	M/s. Straight Furrow Import and Export Services Private Limited
48.	025321	M/s. Karshni Industrial Gases Private Limited
49.	027867	M/s. Renushka Infotech Private Limited
50.	033562	M/s. Varun Institute of Mariners Private Limited
51.	014194	M/s. Rasik Insulations Private Limited
52.	011795	M/s. Bhanu Steels Marketing Private Limited

M.P. SHAH  
Registrar of Companies  
UP & Uttarakhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kanpur-208001, the 1st June 2011

No. LC/560(5)/79—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. Company No.	Name of the Company
1. 027947	M/s. Wates Vision Private Limited
2. 011343	M/s. Merry Home Appliances Private Limited
3. 033413	M/s. Farvision Network Distribution Management Private Limited
4. 006205	M/s. Sahayog Investment and Construction Co. Private Limited
5. 014771	M/s. Pankaj Metals Private Limited
6. 026980	M/s. Indkraft Expositions Private Limited
7. 026426	M/s. Clear Vision Laser Center Private Limited
8. 009562	M/s. Varun Financiers Private Limited
9. 008091	M/s. Jain Exports Private Limited
10. 029412	M/s. Onward Publishers Private Limited
11. 033155	M/s. Reliable Infradevelopers Private Limited
12. 031844	M/s. Kishan Infotech Private Limited
13. 022481	M/s. Menghani Chemicals Private Limited
14. 012703	M/s. Pushpanjali Consultants and Engineers Private Limited

M. P. SHAH  
Registrar of Companies  
UP & Uttarakhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kanpur-208001, the 2nd June 2011

No. LC/560(5)/81—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day

been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. Company No.	Name of the Company
1. 026016	M/s. Ozon-Foods Private Limited
2. 019249	M/s. Ram Dularey Finance Company Limited
3. 017827	M/s. Aonla Mutual Benefits Limited
4. 018276	M/s. Scan Laboratories Private Limited
5. 014528	M/s. Kishan Mutual Benefits Limited
6. 014767	M/s. Riz Finance and Leasing Company Limited
7. 026060	M/s. J.S. Sponge Iron Limited
8. 012833	M/s. Sanatan Housing and Finance (India) Limited
9. 021249	M/s. Nemi Mutual Benefits Limited
10. 015323	M/s. Sachdeva Commercial Credit and Investment Limited
11. 012653	M/s. Shree Varadmurti Finance (India) Private Limited
12. 030060	M/s. Top Knotch Overseas Private Limited
13. 026270	M/s. Beyond Network's Academy Private Limited
14. 027691	M/s. Astor Finmart Private Limited
15. 026125	M/s. Air-Ref-Engineers Private Limited
16. 004318	M/s. Meerut Smelting Private Limited
17. 030499	M/s. ABS Housing Development Private Limited
18. 032545	M/s. DBI Design Solutions India Private Limited
19. 023412	M/s. Akash Catering Services Private Limited
20. 021957	M/s. Krishna Hare Krishna Credit Sec Private Limited
21. 033783	M/s. GPM Chit Fund Private Limited

M. P. SHAH  
Registrar of Companies  
UP & Uttarakhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kanpur-208001, the 3rd June 2011

No. LC/560(5)/82—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the names of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	003549	M/s. Rainbow Foundries Private Limited
2.	022528	M/s. Gayway Exports (India) Private Limited
3.	023076	M/s. Siddharth Hire Purchase Private Limited
4.	020712	M/s. Uttarayan Organics Private Limited
5.	026856	M/s. DI Same Technologies Private Limited
6.	022976	M/s. Naqvi Cold Storage and Ice Factory Private Limited
7.	031963	M/s. Konark Nirman Limited
8.	026834	M/s. Coolex Marketing Private Limited

M. P. SHAH  
Registrar of Companies  
UP & Uttarakhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Chandigarh, the 1st June 2011

No. TS/560(5)/450—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following Companies, unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	024667	M/s. AG Herbals Private Limited
2.	033006	M/s. Kamdhenu Coatings Private Limited
3.	031274	M/s. Brand Realty Chandigarh Private Limited
4.	032542	M/s. SVR Educational Services Private Limited
5.	013529	M/s. Kriti Engineering Private Limited
6.	006225	M/s. Laxmi Manufacturers Private Limited

1	2	3
7.	002804	M/s. Sirhind Khanna Transporters Private Limited
8.	032664	M/s. Dextrous Technologies Private Limited
9.	031805	M/s. Pennon Capital Advisory Private Limited
10.	027862	M/s. V & T Consultancy Services Private Limited
11.	034077	M/s. Just SMS Advertising Company Private Limited
12.	008326	M/s. Dalip Finance Private Limited
13.	007765	M/s. Narula Constructions Private Limited
14.	009976	M/s. Sarbat Finance and Leasing Company Private Limited
15.	029083	M/s. Golden Connections Exim Private Limited
16.	003675	M/s. Mercantile Consultants India Private Limited
17.	015210	M/s. Eminent Overseas Private Limited
18.	030700	M/s. First Immigration Publishers Private Limited
19.	010611	M/s. Punjab Bricks Manufacturing Co. Private Limited
20.	008199	M/s. GSA Finance and Investments Private Limited
21.	009062	M/s. Pakiza Deposits and Investment Private Limited
22.	026977	M/s. M.P. Flywel Services Private Limited
23.	011012	M/s. Ranauta Agro Enterprises Private Limited
24.	023222	M/s. KS Auto Sales and Consultants Private Limited

Dr. RAJ SINGH  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Jaipur-302001, the 31st May 2011

No. RoC/JPR/560(3)/714—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the

date hereof the names of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	010539	M/s. Dev Resorts Private Limited
2.	028188	M/s. Chirag Multitrade Private Limited
3.	010820	M/s. Bhawani Rolling Mills Private Limited
4.	000484	M/s. Dealers and Co. Private Limited
5.	030858	M/s. Shri Charbhuja Agro Private Limited
6.	021629	M/s. Himadri Tours Private Limited
7.	020625	M/s. Vikas Technologies Private Limited
8.	020445	M/s. Sharma Telecom Limited
9.	018190	M/s. Srhi Rishab Shares Private Limited
10.	018590	M/s. Genome Remedies Private Limited
11.	020332	M/s. Qfiscals Mira Shares Consultants Private Limited
12.	027222	M/s. Kalyan Buildivision Private Limited
13.	011557	M/s. Apex Finsec Private Limited
14.	027555	M/s. Sky Heights Tradelinks Private Limited
15.	002172	M/s. Shri Jinendra Textile Mills Private Limited
16.	004627	M/s. Goodluck Constructions Private Limited
17.	020185	M/s. Saint Plywood (India) Private Limited
18.	032463	M/s. Star Radix Edutech Private Limited
19.	026772	M/s. Suman Home Study Private Limited
20.	016970	M/s. R.P. Electech Private Limited
21.	032320	M/s. Bhawati Mintech Processors Private Limited
22.	013528	M/s. Surbhit Gardens Private Limited
23.	028254	M/s. Shiv Surendra Gour Multitrade Services Private Limited
24.	002611	M/s. Prabhat Enterprises Private Limited

S.P. Kumar  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956  
and of the following Companies

Jaipur-302001, the 31st May 2011

No. RoC/JPR/560(5)/715—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	020046	M/s. Haq Hospitality Private Limited
2.	002746	M/s. Kamal Investors and Traders Private Limited
3.	015281	M/s. Ace Cold Chains Private Limited
4.	016112	M/s. Ram Singh Stone Company Private Limited
5.	017397	M/s. Govind Threads Private Limited
6.	017882	M/s. V-3 Trade Technologies Private Limited
7.	018503	M/s. Sita Synthetics Private Limited
8.	020695	M/s. Abhi Tradelink Private Limited
9.	021134	M/s. Kangsabati Agro Private Limited
10.	022085	M/s. Aditya Handicrafts Private Limited
11.	022123	M/s. Rajdev Media Private Limited
12.	022675	M/s. Naveen Buildcon Private Limited
13.	024060	M/s. Saran Shares and Derivatives Private Limited
14.	027650	M/s. Tirupati Powertech Private Limited
15.	006437	M/s. Madhav Investment Company Private Limited
16.	031277	M/s. Shrinath Marine Logistics Private Limited
17.	023503	M/s. Oteva Laboratories Private Limited
18.	016450	M/s. Neembicides Chemicals India Limited
19.	026423	M/s. Pharos Glow Marketing Private Limited
20.	032224	M/s. Shakti Destinations and Lounge Bar Private Limited
21.	029086	M/s. Miracle Ideal Marketing Private Limited

1	2	3
22.	028142	M/s. Shree Hariom Cable Network Private Limited
23.	029220	M/s. SM Parivar Marketing Private Limited
24.	022458	M/s. Pioneer Prabhat Marketing Private Limited
25.	023724	M/s. Predictive Engineering Simulation India Private Limited
26.	017108	M/s. Dharmawati Estate Private Limited

S. P. KUMAR  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956  
and of the following Companies

Jaipur-302001, the 31st May 2011

No. RoC/JPR/560(5)/716—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	002607	M/s. Kothari Papyrus Consultants Private Limited
2.	007630	M/s. Dugar Plantations Limited
3.	009156	M/s. Uttam Malt Private Limited
4.	016006	M/s. Shivalaya Distributors Private Limited
5.	017101	M/s. Sea Bair Impex Private Limited
6.	017797	M/s. Max Promotions Private Limited
7.	018076	M/s. Velocity Tolls Private Limited
8.	018613	M/s. Vaibhav Laxmi Synthetics Private Limited
9.	018809	M/s. Orchidz Jewellery Private Limited
10.	020587	M/s. Jm Kushal Agro Biotech Private Limited
11.	020748	M/s. Pooja Jain Security Services Private Limited
12.	020892	M/s. Samdani Foods Private Limited

1	2	3
13.	023112	M/s. Jivan Ratan Marketing Private Limited
14.	023335	M/s. Jai Balaji Kripa Marketing Private Limited
15.	024497	M/s. Subhlok Real Estate Private Limited
16.	025775	M/s. Harekrishna Steeltech Private Limited
17.	025785	M/s. Harekrishna Breverage Private Limited
18.	025843	M/s. Harekrishna Tradelink Private Limited
19.	025847	M/s. Harekrishna Healthcare Private Limited
20.	003002	M/s. Saboo Enterprises Limited
21.	003216	M/s. Tejasvi White Cement Industries Private Limited
22.	003579	M/s. Adity Ventures Limited
23.	007943	M/s. Super Spun (India) Limited
24.	009845	M/s. Star Paraffins Private Limited
25.	010468	M/s. Megagrowth Finance Private Limited
26.	011060	M/s. SML Welbuild Private Limited
27.	011348	M/s. K.H. Minechem Private Limited
28.	011477	M/s. Skyway Sales Private Limited
29.	013440	M/s. Bhalothia Finlease Private Limited
30.	013672	M/s. Bansal Crushers Private Limited
31.	017557	M/s. Manocha Krishi Vihar Private Limited
32.	021767	M/s. Araavia Herbals Private Limited
33.	022821	M/s. Heros Texprint Private Limited
34.	022840	M/s. Sachiya Business Solutions Private Limited
35.	023298	M/s. Panchbulls Stock Brokers Private Limited
36.	023397	M/s. Morya Veer Security Services Private Limited
37.	023519	M/s. Colosseum Fitness Planet Private Limited
38.	023701	M/s. Five Buddies Entertainment Private Limited
39.	023843	M/s. Genetics Healthcare Private Limited
40.	024883	M/s. Tantra Jewels Private Limited

1	2	3
41.	009598	M/s. Pinnscl Finlease Private Limited
42.	008323	M/s. Vivek Holdings Private Limited

S. P. KUMAR  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956  
and of the following Companies

Patna, the 23rd May 2011

No. RoC/PAT/560(5)/EES-2011/502—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1.	010282	M/s. Efficient Spirit Private Limited
2.	009826	M/s. Ruspa Pharmaceuticals Private Limited
3.	007648	M/s. Nikash Securities Private Limited
4.	011112	M/s. Krishngeeta Construction and Builders Private Limited
5.	011290	M/s. Mrinal Developers and Builders Private Limited
6.	002019	M/s. Vijay Groups (C&M) Private Limited
7.	008706	M/s. Kumud Informatics Private Limited
8.	004385	M/s. Auto Zone Services Private Limited
9.	010578	M/s. Vananchal Marketing Private Limited
10.	010335	M/s. Bolbam Developers Private Limited
11.	010272	M/s. Perfectaims Trade and Business Private Limited
12.	010148	M/s. Birsa Engineering Works Private Limited
13.	013163	M/s. Shrachi Jaideep Construction Private Limited
14.	004745	M/s. Archtech Developers (India) Private Limited
15.	012628	M/s. SP Malik Otanmal Engineers Private Limited
16.	011952	M/s. Trambekeshwar Construction Private Limited
17.	010619	M/s. Kushalrishab Marketing Private Limited

O. P. SHARMA  
Registrar of Companies  
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956  
and of the following Companies

Patna, the 23rd May 2011

No. RoC/PAT/560(3)/EES-2011/503—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of thirty days from the date hereof the names of the following Companies, unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1.	005952	M/s. Nalanda Ispat Udyog Private Limited
2.	009804	M/s. Classic Bhawan Private Limited
3.	007998	M/s. Vikramshila Agrotech Private Limited
4.	006963	M/s. Camco Steels Private Limited
5.	001012	M/s. Aren Chemicals Private Limited

O. P. SHARMA  
Registrar of Companies  
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956  
and of the following Companies

Patna, the 26th May 2011

No. RoC/PAT/560(5)/EES-2011/542—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	005443	M/s. North East Saving & Investment (India) Limited
2.	005825	M/s. Vishnu Exports (India) Private Limited
3.	009819	M/s. Neeshoni Technocrats Private Limited
4.	006703	M/s. Sarveshwari Impex Private Limited
5.	008656	M/s. Lihala Contractors Private Limited
6.	010777	M/s. Rocksys Computer Services Private Limited
7.	001998	M/s. Eastern Techno Providers Private Limited

1	2	3
8.	009399	M/s. MA Rukmini Developer Construction Private Limited
9.	006723	M/s. Alliance Plantation & Developers Private Limited
10.	001241	M/s. Bihar Khandsari Udyog Private Limited
11.	011740	M/s. Shahiana Developers and Construction Private Limited
12.	004442	M/s. Bhalotia Construction Company Private Limited
13.	013493	M/s. Devika Buildcon Private Limited
14.	012870	M/s. Ashaji Rasoi Private Limited
15.	011840	M/s. Pertinent Yeoman Construction Services Private Limited

O. P. SHARMA  
Registrar of Companies  
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956  
and of the following Companies

Patna, the 31st May 2011

No. RoC/PAT/560(5)/EES-2011/552—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	007302	M/s. Charmwood Plantations Private Limited
2.	009237	M/s. Sneha Aviation Private Limited
3.	011158	M/s. Varun Ferrous Steels Private Limited
4.	010992	M/s. Sri Suryam Steels Private Limited
5.	009407	M/s. Trinity Softel Private Limited
6.	008872	M/s. Bharathu Nirman Limited
7.	012840	M/s. Manoj Foods Private Limited
8.	004250	M/s. Nic Manufacturing Private Limited
9.	012505	M/s. Bioas Life Sciences Private Limited
10.	005103	M/s. Oak & Wood Bottlers Private Limited

1	2	3
11.	011295	M/s. Shiva Tech Development and Consultancy Private Limited
12.	008595	M/s. Asra Construction Private Limited
13.	004585	M/s. Shyam Techtrade Private Limited
14.	012522	M/s. Herbolite Research and Marketing Private Limited
15.	013341	M/s. Bhagwati Engicon Private Limited

O. P. SHARMA  
Registrar of Companies  
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Baramati Power Private Limited

Ahmedabad-380013, the 1st June 2011

No. 560/(3)MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2011/00641/8017—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Baramati Power Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Digital Pixel Web Grafics Private Limited

Ahmedabad-380013, the 2nd June 2011

No. 560/(3)MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2011/00102/8180—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Digital Pixel Web Grafics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Quanta Pharma Private Limited

Ahmedabad-380013, the 2nd June 2011

No. 560/(3)MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2011/00116/8177—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of M/s. Quanta Pharma Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956  
and of the following Companies

Mumbai, the 1st June 2011

No. RoC/560(5)/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	031078	M/s. Talbot Trading Company Private Limited
2.	140333	M/s. Mastek Outsourcing Services Private Limited
3.	122621	M/s. All India Pharmaceutical Distributors and Clearing and Forwarding Agents Organisations
4.	186339	M/s. Vasundhara Vikasak Private Limited
5.	186475	M/s. Kalpak Vikasak Private Limited
6.	055437	M/s. Evermore Pipe Systems Limited
7.	069258	M/s. Evermore Polymer Systems Limited
8.	184325	M/s. Saffron Insurance Brokers Private Limited
9.	167071	M/s. RN Automotive Private Limited
10.	155038	M/s. Proman Engineering Consultants Private Limited
11.	049720	M/s. Omega Management Services Limited
12.	171998	M/s. Quest Realty Private Limited
13.	182253	M/s. Pulse Indage Hospitality Limited
14.	164676	M/s. Dofw Consulting Services Private Limited
15.	077975	M/s. Evermore Convest Limited
16.	044739	M/s. Trojan Sportswear Private Limited
17.	183149	M/s. Lilywhite Capital Advisors Private Limited

1	2	3
18.	141265	M/s. Saras Infotech Private Limited
19.	131202	M/s. Jasamrit Consultants Private Limited
20.	131077	M/s. Shreyash Traders (India) Private Limited
21.	184963	M/s. Fig Adviors (India) Private Limited
22.	148005	M/s. Specsoft Technologies India Limited
23.	119939	M/s. Orion Adventures Private Limited
24.	173836	M/s. QSR Cuisines Private Limited
25.	062033	M/s. Colosseum Sports and Recreation International
26.	170511	M/s. Megha Corporate Consultants Private Limited
27.	168120	M/s. Polygon Net Private Limited
28.	107805	M/s. Sengupta Krishi Sanstha Private Limited
29.	009691	M/s. Swan India Private Limited
30.	180253	M/s. Netclues Solutions Private Limited
31.	131149	M/s. Proton Softech Limited
32.	131083	M/s. Venteck Technologies Limited
33.	030916	M/s. Clipto Pharmaceutical Limited
34.	031805	M/s. Trans Atlantic Trading Private Limited
35.	047985	M/s. Daykon Financial Services Limited
36.	044423	M/s. Namita Packaging and Printing Industries Private Limited
37.	157085	M/s. Cloneage Electronics Private Limited
38.	080982	M/s. Mayavati Finvest and Leasing Private Limited
39.	167403	M/s. Trishna Multi Trade Private Limited
40.	168249	M/s. Mathias Dantas Estates Private Limited
41.	128909	M/s. Dinar Infosoft Limited
42.	050321	M/s. Tamir Erectors and Engineers Private Limited
43.	114986	M/s. Hi Line Business Centre Private Limited
44.	056875	M/s. Compact Paper Products Private Limited
45.	137590	M/s. Revechi Impex Private Limited

1	2	3
46.	130134	M/s. Adarshlok Agencies Private Limited
47.	006700	M/s. Heatreats Private Limited
48.	133343	M/s. Q Market Research India Private Limited
49.	123182	M/s. Bhanja Consulting and Intermediaries Private Limited
50.	171536	M/s. Koradi Power Company Limited
51.	144863	M/s. Oasis Maritime Agencies Private Limited
52.	046772	M/s. Deccan Commercial Services Private Limited
53.	108645	M/s. Armstrong Mechatronics System Private Limited
54.	015470	M/s. Chawla Engineers Private Limited
55.	116385	M/s. Parsee Welfare (Sind) Private Limited
56.	142504	M/s. Swan Audio and Video Stores Private Limited
57.	190742	M/s. Siddhivinayak Forwarders India Private Limited
58.	157766	M/s. Courage Capital Advisory Private Limited
59.	072813	M/s. Planet Construction Private Limited
60.	083222	M/s. Sogo Electronic Controls Private Limited
61.	096235	M/s. Surya Systematic Data Private Limited
62.	011383	M/s. Chowgule Engineers and Machines Limited

RAJINDER SINGH MEENA  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Puducherry-605011, the 30th May 2011

No. 3(156)/S. 560(5)/EES/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

S. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	1852	M/s. Ex-Servicemen Security and Detective Bureau Private Limited
2.	1031	M/s. Yoghalakshmi Finance Private Limited

V. SWAMIDASON  
Registrar of Companies  
Puducherry

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata-700020, the 2nd June 2011

No. RoC/WB/EES-560/2011/803—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies are annexed herewith have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1	2	3
1.	075584	M/s. Pancy Plantation Private Limited
2.	124611	M/s. Bright Vintrade Private Limited
3.	066118	M/s. Plat Laboratories Private Limited
4.	037104	M/s. Foun Con Private Limited
5.	072287	M/s. Uniexcel International Limited
6.	073649	M/s. Radhe Krishna Investment Private Limited
7.	112593	M/s. Gabon Inde Project Development Private Limited
8.	077224	M/s. Greenwood India Private Limited
9.	071349	M/s. N & K Ghosh Pharmaceuticals Private Limited
10.	079422	M/s. Krishna Metalloy Private Limited
11.	109357	M/s. Megabyte Vinimay Private Limited
12.	093177	M/s. Konnagar Computer Education Centre Private Limited
13.	021965	M/s. Vidyodaya Library Private Limited
14.	039849	M/s. Byte Systems Private Limited
15.	086600	M/s. Bhawani Polypack Private Limited
16.	102073	M/s. Mandakani Management Private Limited

1	2	3
17.	101291	M/s. Stylish Vinimay Private Limited
18.	106975	M/s. Insta Consultancy Private Limited
19.	037424	M/s. Doric Builders Private Limited
20.	091166	M/s. Mainak Plantations Private Limited
21.	020107	M/s. Hindusthan National Baga & Burlap Co. Private Limited
22.	027934	M/s. Poly Containers Private Limited
23.	113732	M/s. Apex Plaza Private Limited
24.	077041	M/s. Ganga Multipurpose Articles Private Limited
25.	037182	M/s. Sumeet (India) Private Limited
26.	090913	M/s. Mapp Consultants Private Limited
27.	089636	M/s. Anandam Infotech Private Limited
28.	092859	M/s. T. P. Info Education Private Limited
29.	095358	M/s. TPS Info Services Private Limited
30.	106866	M/s. Sensor Operations Support Solutions Private Limited
31.	112514	M/s. AFI Autotech Private Limited
32.	108835	M/s. Makrana Sanitations Private Limited
33.	040241	M/s. MSJ Financiers & Consultants Private Limited
34.	052098	M/s. Bijoy Pictures Private Limited
35.	111475	M/s. Envirotech Solutions Private Limited
36.	098449	M/s. BB Assets Management & Financial Consultant Private Limited

HARIHARA SAHOO  
Asstt. Registrar of Companies  
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata-700020, the 6th June 2011

No. RoC/WB/EES-560/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies are annexed herewith have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1.	021389	M/s. Chayanika Press Private Limited
2.	081411	M/s. Koushik Poly-Pack Private Limited
3.	110915	M/s. Fruition Communication Private Limited
4.	053360	M/s. Adeiq International Limited
5.	057909	M/s. Atlanta Health Centre Private Limited
6.	032418	M/s. Silpo-O-Banijya Private Limited
7.	051302	M/s. L. D. Services & Exports Private Limited
8.	069577	M/s. Watterson Merchants Private Limited
9.	062332	M/s. Rajat Homfin Private Limited
10.	051820	M/s. Kothari Finvest Private Limited
11.	044678	M/s. Dawn Colour Laboratory Private Limited

HARIHARA SAHOC  
Asstt. Registrar of Companies  
West Benga

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata-700 020, the 6th June 2011

No. RoC/WB/IPC-560/SM/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	042208	M/s. Chatterjee Brothers Private Limited
2.	087847	M/s. Samadhan Computer Systems Private Limited
3.	030096	M/s. Ramsarup Financiers Private Limited
4.	107809	M/s. Gorkha Breweries & Distilleries Private Limited
5.	074712	M/s. S. K. Technirite Business Private Limited
6.	045374	M/s. Ultra Power Storage Private Limited
7.	039824	M/s. Assam Services & Agencies Private Limited

1	2	3
8.	049484	M/s. Kasturi Credit Private Limited
9.	055939	M/s. Pas Engineers and Consultants Private Limited
10.	050358	M/s. Kamakshi Commercial Company Private Limited
11.	106404	M/s. KPS Ispat Industries Private Limited
12.	102881	M/s. Parijat Projects Limited
13.	109913	M/s. Sriram Commodeal Private Limited
14.	084707	M/s. A B Conveyors Private Limited
15.	074491	M/s. Falcom Merchants Private Limited
16.	021789	M/s. Hindusthan Selling Agencies Private Limited
17.	020477	M/s. K M Sadhukhan & Sons Private Limited
18.	101091	M/s. H B P Business Advisory Services Private Limited
19.	065398	M/s. Skein Enterprises Private Limited
20.	076875	M/s. Abhinandan Tradelink Private Limited
21.	089372	M/s. SGS Automation Services Private Limited
22.	109133	M/s. Spectrum Biofuels Private Limited
23.	069170	M/s. Boulevard Distributors Private Limited
24.	116384	M/s. Dhanshri Fin Caps Limited
25.	078567	M/s. Prasad Forms Private Limited
26.	087290	M/s. AKG Health Care Centre Private Limited
27.	099358	M/s. Archieve Advisory Services Private Limited
28.	060714	M/s. Rashmi Software Private Limited
29.	027002	M/s. Janata Shipping Co. Private Limited
30.	061824	M/s. Credence Trexim Private Limited
31.	083135	M/s. R S Tech System Private Limited
32.	098432	M/s. Dr. R P Gupta Drug House Private Limited
33.	076867	M/s. Ritambhara Exports Private Limited
34.	076441	M/s. Pankaj Dealers Private Limited
35.	098561	M/s. Narsingh Commodities Private Limited
36.	087064	M/s. Krishnanics Controls Private Limited
37.	108371	M/s. Rudra Garments Private Limited

1	2	3
38.	095614	M/s. Narendra Cinema Private Limited
39.	106268	M/s. SLC Net Com Services Private Limited
40.	104011	M/s. Silverline Cardiac Care Private Limited
41.	075575	M/s. Ayesha Florist Private Limited
42.	060576	M/s. Koushik Trading & Investment Private Limited
43.	075576	M/s. Narcissus Florist Private Limited
44.	116831	M/s. Shree Pooja Carriers Private Limited
45.	117085	M/s. Sikhar Dealcom Private Limited
46.	084278	M/s. Suravi Merchant Private Limited
47.	075562	M/s. Dahlia Florist Private Limited
48.	115416	M/s. Ganapati Seeds & Biotech Private Limited
49.	106168	M/s. Space 'N' Wings Tours & Travels Private Limited
50.	106485	M/s. Uneedus Marketing Private Limited
51.	100361	M/s. Smart Agency Services Private Limited
52.	097800	M/s. Kolkata High Rise Private Limited
53.	100926	M/s. Onkar Tea Private Limited
54.	073671	M/s. Chitravali Commercial Private Limited

HARIHARA SAHOO  
Asstt. Registrar of Companies  
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Orion Packers Private Limited

Shillong-793001, the 30th May 2011

No. RoC/SH/560(5)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Orion Packers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Manipur Cements Limited

Shillong-793001, the 30th May 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Manipur Cements Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY

Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Manipur Cycles Corpn Limited

Shillong-793001, the 30th May 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Manipur Cycles Corpn Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY

Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Manipur Spinning Mills Corpn Limited

Shillong-793001, the 30th May 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Manipur Spinning Mills Corpn Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY

Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Meghalaya Web & Visions Private Limited

Shillong-793001, the 30th May 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Meghalaya Web & Visions Private Limited has this

day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY

Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jecce Agro and Allied Produce Private Limited

Shillong-793001, the 30th May 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jecce Agro and Allied Produce Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY

Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. M. S. Luit Poly Packs Limited

Shillong-793001, the 30th May 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. M. S. Luit Poly Packs Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY

Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chenijan Tea Co. Private Limited

Shillong-793001, the 30th May 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chenijan Tea Co. Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY

Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ghorajan Tea Co. Private Limited

Shillong-793001, the 30th May 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Ghorajan Tea Co. Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Neha Century Finance Private Limited

Shillong-793001, the 30th May 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Neha Century Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Purbanchal Tyres Private Limited

Shillong-793001, the 30th May 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Purbanchal Tyres Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cityview Hotels Private Limited

Shillong-793001, the 30th May 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cityview Hotels Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Care Laboratories Private Limited

Shillong-793001, the 30th May 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Care Laboratories Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. King Aqua Private Limited

Shillong-793001, the 30th May 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. King Aqua Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pathfinder Graphics Private Limited

Shillong-793001, the 30th May 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pathfinder Graphics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. MGT Spares Private Limited

Shillong-793001, the 30th May 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. MGT Spares Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Micro Media Infotech Private Limited

Shillong-793001, the 30th May 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Micro Media Infotech Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY

Asstt. Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Structural & MFG Co. Private Limited

Shillong-793001, the 30th May 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Structural & MFG Co. Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY

Asstt. Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lois India Private Limited

Shillong-793001, the 30th May 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lois India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY

Asstt. Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Cuttack-753001, the 30th May 2011

No. RoC/Sec. 560(5)/EES-2011/892—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15-006680	M/s. Sarada Power Link Project Private Limited
2.	15-009714	M/s. Sikhya Prakasan Private Limited
3.	15-006508	M/s. Mughlai Affair Food and Beverage Chains Private Limited

1	2	3
4.	15-008401	M/s. Giga Consultants Private Limited
5.	15-007208	M/s. Sri Hanuman carbon Private Limited
6.	15-008460	M/s. M. K. IT Solutions Private Limited
7.	15-008268	M/s. Maa Laxmi Plant Biotech Private Limited
8.	15-002623	M/s. Victor Computers Private Limited
9.	15-008723	M/s. Utkal Resources Private Limited
10.	15-008968	M/s. Hiteck Infopark Private Limited
11.	15-007077	M/s. Bankeswari Impex Private Limited
12.	15-002635	M/s. Chandni Resorts Private Limited
13.	15-002157	M/s. Jagannath Land and Housing Projects Limited
14.	15-008137	M/s. Dreamland Minerals Private Limited
15.	15-009547	M/s. S. K. Equipments and Structures Private Limited

B. MOHANTY  
Registrar of Companies  
Oriss

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Cuttack-753001, the 1st June 2011

No. RoC/Sec. 560(3)/2011/940—Notice is hereby give pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	15-006454	M/s. Arupa Shelter Private Limited
2.	15-006641	M/s. X-Gen Systems Limited
3.	15-006881	M/s. Orimark Marketing Private Limited
4.	15-007351	M/s. Autotrack Private Limited
5.	15-011397	M/s. Beacon Technology Private Limited

B. MOHANTY  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Cuttack-753001, the 3rd June 2011

No. RoC/Sec. 560(5)/EES-2011/952—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	15-003255	M/s. M. M. Sales Private Limited
2.	15-003665	M/s. Singh Real Estate Private Limited
3.	15-002744	M/s. Neeladri Combines Private Limited
4.	15-008488	M/s. Siddhartha Builders and Promoters Private Limited
5.	15-000584	M/s. J. and J. Pharmaceuticals Private Limited

B. MOHANTY  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Eaglecounty Resorts Private Limited

Ernakulam-682021, the 12th May 2011

No. 560/(3)MCA/RoC-Ernakulam/sec 560/2011/00039—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Eaglecounty Resorts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

K. G. JOSEPH JACKSON  
Registrar of Companies  
Kerala & Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Y. C. T. Kuries Private Limited

Ernakulam-682021, the 12th May 2011

No. 560/(3)MCA/RoC-Ernakulam/sec 560/2011/00044—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Y. C. T. Kuries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

K. G. JOSEPH JACKSON  
Registrar of Companies  
Kerala & Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Archsketch Engineers & Builders Private Limited

Ernakulam-682021, the 18th May 2011

No. 560/(3)MCA/RoC-Ernakulam/sec 560/2011/00083—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Archsketch Engineers & Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

K. G. JOSEPH JACKSON  
Registrar of Companies  
Kerala & Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Epillars Technologies Private Limited

Ernakulam-682021, the 26th May 2011

No. 20173—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Epillars Technologies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

K. G. JOSEPH JACKSON  
Registrar of Companies  
Kerala & Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Zicore Technologies Private Limited

Ernakulam-682021, the 26th May 2011

No. 15982—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Zicore Technologies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

K. G. JOSEPH JACKSON  
Registrar of Companies  
Kerala & Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Unibiss Securities Private Limited

Ernakulam-682021, the 26th May 2011

No. 18477—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Unibiss Securities Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

K. G. JOSEPH JACKSON  
Registrar of Companies  
Kerala & Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gitech Exim Private Limited

Ernakulam-682021, the 26th May 2011

No. 16122/560(5)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gitech Exim Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

K. G. JOSEPH JACKSON  
Registrar of Companies  
Kerala & Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956  
and of the following Companies

Kochi, the 26th May 2011

No. Notice u/s. 560(5)/EES-2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	1067	M/s. Seshasayee Brothers Travancore Private Limited
2.	1733	M/s. Kerala Construction Components Limited
3.	2218	M/s. Chalakudy Refractories Limited
4.	2899	M/s. Mar Gregorios Garments Limited
5.	4454	M/s. Wyanad Steels and Alloys Private Limited
6.	5245	M/s. Johan Plastmet Private Limited
7.	5264	M/s. Uppala Aromatic Industries Private Limited
8.	6915	M/s. Suraksha Tyres Limited
9.	8026	M/s. Eurasia Gas Industries Private Limited
10.	8227	M/s. Koluthara Properties and Resorts Private Limited
11.	8270	M/s. Suralakshmi Housing Complex Private Limited
12.	8484	M/s. Udaya Marketing Private Limited
13.	9939	M/s. Titbit Super Market Private Limited
14.	10855	M/s. KPV Marketing Services Private Limited

1	2	3
15.	11032	M/s. Cochin Acids and Chemicals India Private Limited
16.	12028	M/s. Gabriel Marketing Services Private Limited
17.	12148	M/s. Milkway Dairy Products Private Limited
18.	12240	M/s. Radhesa Saree Trading Company Private Limited
19.	12598	M/s. Life Books Private Limited
20.	12623	M/s. Pamba Tyres Private Limited
21.	14166	M/s. ORB Nexus Merchandising Private Limited
22.	14210	M/s. Yem Kay Roadways Private Limited
23.	14351	M/s. Vedic Holidays Com Private Limited
24.	14403	M/s. Kuruvilassery Gramina Kurie Private Limited
25.	14678	M/s. Enet Software Technologies Private Limited
26.	15089	M/s. Radiant Plasto Products Private Limited
27.	15554	M/s. Ysame Electronics and Information Technology Private Limited
28.	15993	M/s. Appus Digital Studio Private Limited
29.	16099	M/s. Cochin Water Technologies Private Limited
30.	16169	M/s. Golden Treat Resorts and Hot Private Limited
31.	16618	M/s. Kannankandy Floorings Private Limited
32.	16635	M/s. Thrissur Diamond Company Private Limited
33.	16700	M/s. G-Way Marketing Private Limited
34.	16722	M/s. Wheel Marine Private Limited
35.	16762	M/s. Sree Bhadra Pictures Private Limited
36.	17378	M/s. Rite Homes Private Limited
37.	17402	M/s. Lines Info Solutions Private Limited
38.	17450	M/s. Koyickal Digital Systems Private Limited
39.	17460	M/s. Threebees Services and Marketing Private Limited
40.	17698	M/s. Max Graphics Private Limited
41.	17726	M/s. Gurudeva Trading Company Limited
42.	18057	M/s. Inspigo Technologies Private Limited

1	2	3
43.	18476	M/s. Malabar Medical Services Private Limited
44.	18478	M/s. Infarm Victory Marketing Private Limited
45.	18788	M/s. M P T Consultants Private Limited
46.	19028	M/s. Strategic Education and Technology India Private Limited
47.	19092	M/s. GTS Software Private Limited
48.	19304	M/s. Vembillil Builders Private Limited
49.	19342	M/s. Manjadan's Marketing Private Limited
50.	19409	M/s. Guardian Environmental and Waste Management Technologies Private Limited
51.	19924	M/s. Kannur Sri Vinayaka Textiles Private Limited
52.	20036	M/s. V Together Agro Private Limited
53.	20056	M/s. Strawberry Holidays India Private Limited
54.	20915	M/s. Kadathanad Agros (India) Limited
55.	21011	M/s. Maxcare Hospitals Private Limited

K. G. JOSEPH JACKSON  
Registrar of Companies  
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956  
and of the following Companies

Kochi-682021, the 26th May 2011

No. Notice u/s. 560(5)/EES-2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	223	M/s. The Cochin Commercial Syndicate Limited
2.	9219	M/s. Mattam Finance Company Limited
3.	9633	M/s. Vishak Road Lines Private Limited

1	2	3
4.	9715	M/s. Koluthara Systems Private Limited
5.	10051	M/s. Nila Minerals Private Limited
6.	13621	M/s. K.K.K. Oil Mills Private Limited
7.	14123	M/s. Trivandrum E-Commerce Services and Technologies Private Limited
8.	14178	M/s. Kevin Bio Plast Limited
9.	14227	M/s. Boopadi Impex Private Limited
10.	16462	M/s. Chaithanya Flour Mills Limited
11.	16633	M/s. Crisq Management Services Private Limited

K. G. JOSEPH JACKSON  
Registrar of Companies  
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Neo Lamps Private Limited

Ernakulam-682021, the 4th May 2011

No. 12593—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Neo Lamps Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. E. JOSEKUTTY  
Asstt. Registrar of Companies  
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Concepts Holdings India Private Limited

Ernakulam-682021, the 4th May 2011

No. 6027—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Concepts Holdings India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. E. JOSEKUTTY  
Asstt. Registrar of Companies  
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956  
and of the following Companies

Hyderabad, the 30th April 2011

No. RoC/560(5)/EES-2011/SRD/1-4—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956, that the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1.	039721	M/s. Subhala Ayurvedic and Cosmetics Private Limited
2.	057518	M/s. Sunspace Projects Private Limited
3.	031169	M/s. Vishnuteja Constructions Private Limited
4.	047047	M/s. 17 Technologies Private Limited

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956  
and of the following Companies

Hyderabad, the 30th April 2011

No.RoC/560(5)/EES-2011/SRD/1-161—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	027027	M/s. Mahavir Sheleters Private Limited
2.	053876	M/s. DVN Home Fields Private Limited
3.	052601	M/s. Madhavi Infrastructure Private Limited
4.	011700	M/s. Unique Power Systems Private Limited
5.	004402	M/s. Pioneer Enterprises and Exports Private Limited
6.	028895	M/s. Hyderabad Television Private Limited
7.	036808	M/s. Ridgeway Impex Limited
8.	047183	M/s. Maheshwari Parameshwari Road Lines (India) Private Limited
9.	045381	M/s. Siri Bio Medical Systems Private Limited
10.	029557	M/s. Vibhavari Constructions Company Private Limited
11.	029402	M/s. Vibhavari Housing and Property Developers Private Limited

1	2	3
12.	056779	M/s. Beacon Wealth Advisors Private Limited
13.	018846	M/s. M.L. Financial Services Limited
14.	057765	M/s. Rayani Motors Private Limited
15.	025453	M/s. Sri Padmanabha Chit Funds Private Limited
16.	033291	M/s. Harvinshaa I.T. Solutions Private Limited
17.	030469	M/s. OPB Srikakulam Oil Mills Private Limited
18.	038768	M/s. Triumph Home Appliances Private Limited
19.	058067	M/s. S.K. Wealth Creators Private Limited
20.	004289	M/s. Tasty Foods Private Limited
21.	038200	M/s. Sarvani Technologies Private Limited
22.	051563	M/s. Adarsh Finechem (India) Private Limited
23.	048965	M/s. Sole IT Solutions Private Limited
24.	019880	M/s. Eluru Communication Network Private Limited
25.	008767	M/s. Thermal Vidyut Conductors Private Limited
26.	057465	M/s. Winwin Multishopping (AP) Private Limited
27.	017690	M/s. Surabhi Holdings Private Limited
28.	043973	M/s. Acme Home Solutions Private Limited
29.	041557	M/s. Aster Naturals Private Limited
30.	034357	M/s. Skylark Power Generation Private Limited
31.	048736	M/s. DCS Turbine Services Private Limited
32.	039359	M/s. Ramalakshmi Bio-Energy Private Limited
33.	023426	M/s. Gudiputi Estates Private Limited
34.	016342	M/s. Vasavi Integrated Services Company Private Limited
35.	045520	M/s. DR JMR Consulting Private Limited
36.	013356	M/s. Seawell Marine Products Private Limited
37.	021342	M/s. RR Bio-Energies Limited
38.	041076	M/s. Agastya Constructions Private Limited

1	2	3	1	2	3
39.	053230	M/s. Natural Design and Engineering Services Limited	68.	051777	M/s. Mukkuttathode Hydro Power Project Private Limited
40.	049789	M/s. Wizon Infotech Private Limited	69.	051634	M/s. Alamparathodu Hydro Power Project Private Limited
41.	007013	M/s. Indian Bottlers Private Limited	70.	050448	M/s. Posani Developers Private Limited
42.	027298	M/s. Kenaf Power and Industries Limited	71.	033207	M/s. Venkata Ramana Agro-Tech Private Limited
43.	051424	M/s. HB Lands Private Limited	72.	054740	M/s. Sura Agritech Private Limited
44.	030196	M/s. Kallam Power Projects Private Limited	73.	009787	M/s. Sri Rama Manorama Tiles Limited
45.	007648	M/s. Pee Enn Metochem Private Limited	74.	009800	M/s. LFM Engineering Private Limited
46.	048410	M/s. Billa Gift Services Private Limited	75.	013510	M/s. Piniseti Engineers Private Limited
47.	040238	M/s. Selebrity Access Media Network Private Limited	76.	042780	M/s. Sri Gowridevi Power Private Limited
48.	013536	M/s. Rongala Technologies Private Limited	77.	043127	M/s. Genova Bio Systems Private Limited
49.	017942	M/s. Ambica Rotopack Limited	78.	053138	M/s. Geontelligent Solutions Private Limited
50.	050545	M/s. Siddharth Villas Private Limited	79.	013098	M/s. Treadwell Rubber Private Limited
51.	050443	M/s. Laila Mining and Minerals Private Limited	80.	033384	M/s. Bid India Com Private Limited
52.	040183	M/s. Confianza Constructions Private Limited	81.	034978	M/s. Aashritha Creations Limited
53.	046450	M/s. Sole Exports (India) Private Limited	82.	038596	M/s. 3B Technologies Private Limited
54.	051011	M/s. Mettle Engineers Private Limited	83.	049059	M/s. Metasun Farms Private Limited
55.	033343	M/s. Loventila Information Systems Limited	84.	051790	M/s. Nargan Corporate Advisory Solutions Private Limited
56.	013776	M/s. Nipum Hitech Atlentic Services Private Limited	85.	021042	M/s. Sri Ramakrishna Plastics Private Limited
57.	048056	M/s. Fortune Avenues Private Limited	86.	051789	M/s. Nargan Trading Private Limited
58.	040949	M/s. Havan Information Technologies Limited	87.	053874	M/s. DVN Dreamlands Private Limited
59.	042078	M/s. V.I. Infotech Private Limited	88.	052600	M/s. Hema Homes Private Limited
60.	029161	M/s. Global Infomed Services Private Limited	89.	035656	M/s. Pioneer Multitech Private Limited
61.	044085	M/s. Pothina Pulp Private Limited	90.	058446	M/s. 3RD Rock IT Solutions Private Limited
62.	026953	M/s. Sungold Agri Farms and Exports Limited	91.	038057	M/s. Sivney Systems Private Limited
63.	005378	M/s. Svec Poly-Pack Private Limited	92.	007335	M/s. AL-Haramain Private Limited
64.	034249	M/s. Wonder Web Solutions Private Limited	93.	024011	M/s. VMRL Infotek Private Limited
65.	053373	M/s. Shirdi Sai Importers & Exporters Private Limited	94.	025556	M/s. Avatar Poonjinivesh Private Limited
66.	013484	M/s. Nebular Organics Private Limited	95.	004236	M/s. V.S. Films Private Limited
67.	044648	M/s. Yatt Exports Private Limited	96.	050676	M/s. Neltech Data Systems Private Limited
			97.	053319	M/s. Idelf Media Technologies Limited
			98.	019786	M/s. Stony Carter Consultants Private Limited
			99.	034065	M/s. Millenium Sea Foods Private Limited

1	2	3
100.	058311	M/s. Cyber Stream (India) Private Limited
101.	055013	M/s. Naastitha Infrastructure Private Limited
102.	056610	M/s. Bay Digital Networks Private Limited
103.	055871	M/s. R.R. Global Mineral Impex Private Limited
104.	033742	M/s. Telugu Talkies Com Private Limited
105.	030197	M/s. Kallam Exports Private Limited
106.	040913	M/s. Kokanee Pharmacy Private Limited
107.	020147	M/s. Dhana Lakshmi Farms Private Limited
108.	049800	M/s. JSM Tours and Travels Private Limited
109.	002078	M/s. Hemson Electronics Industries Private Limited
110.	019755	M/s. Sri Kalyan Agro Services Private Limited
111.	031672	M/s. Natco Drugs and Fine Chemicals Private Limited
112.	003996	M/s. Zuckertek Services Private Limited
113.	030191	M/s. Swan Coated Products Private Limited
114.	054800	M/s. All New IT Solutions Private Limited
115.	033881	M/s. Chinmudra Dhari Securities Private Limited
116.	024383	M/s. Vengamamba Granites Private Limited
117.	035330	M/s. Emergent Infosystems Private Limited
118.	034314	M/s. Arun Tech-Solutions Private Limited
119.	040217	M/s. Madhuri Sugar and Powergen Limited
120.	040649	M/s. Tribute Pharmaceuticals Private Limited
121.	040618	M/s. Lightning Instrumentation Private Limited
122.	053882	M/s. Rajlok Projects Private Limited
123.	054959	M/s. M.A.G. Securities Limited
124.	018004	M/s. Nava Bharat Floriculture Limited
125.	007724	M/s. Recharla Marketing Services Private Limited
126.	020551	M/s. Kayes Chemint Limited

1	2	3
127.	037978	M/s. DGP Impex Private Limited
128.	014948	M/s. Narven Consultants Private Limited
129.	034474	M/s. E-Phase Technologies Limited
130.	005321	M/s. Ampro Confectionery Private Limited
131.	043389	M/s. Inchi Technologies Private Limited
132.	047894	M/s. VVT Agritech Private Limited
133.	052248	M/s. Abhishek Thermal Power (India) Limited
134.	007085	M/s. DCL Synthetics and Chemicals Limited
135.	038612	M/s. Vadde Telefilms Private Limited
136.	028170	M/s. Sri Kalpatharu Herbal Chem Private Limited
137.	045800	M/s. H <sub>2</sub> O Powergen (India) Private Limited
138.	031268	M/s. Hyderabad Fresh Desert Private Limited
139.	030281	M/s. Vibhaavvari Exim Private Limited
140.	044676	M/s. V. L. Software Private Limited
141.	016791	M/s. Indicon Electronics Private Limited
142.	045701	M/s. S. V. R. Technologies Private Limited
143.	033035	M/s. Hoyasala Estates Private Limited
144.	044882	M/s. Oak Net Private Limited
145.	046654	M/s. Zest Info Private Limited
146.	050376	M/s. Visakha Beach Homes Private Limited
147.	040049	M/s. Teletel Communications India Private Limited
148.	003184	M/s. Kallam Hotels Private Limited
149.	012880	M/s. Dycon Consulting Engineers Private Limited
150.	054506	M/s. Swift Premier IT Services Private Limited
151.	054030	M/s. Sciontech Ites Private Limited
152.	054951	M/s. Zilot Software Private Limited
153.	040953	M/s. ARPM Logistics Private Limited
154.	010037	M/s. Kay Kay Distributors Private Limited
155.	003482	M/s. ML Software Parks Private Limited
156.	027930	M/s. Devulapalli Publications Limited
157.	044463	M/s. Avaron Technologies Private Limited

1	2	3
158.	031782	M/s. Suketu Components Private Limited
159.	044570	M/s. Anandi Steels Private Limited
160.	047869	M/s. Southern Spice Food Lounges Private Limited
161.	055347	M/s. Rassar Software Solutions Private Limited

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956  
and of the following Companies

Hyderabad, the 18th May 2011

No. RoC/560(5)/EES-2011/VSJ/1-135—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	020273	M/s. Inter World Exports Private Limited
2.	045711	M/s. Victor Agri Agencies Private Limited
3.	044090	M/s. Victor Fertilizers Limited
4.	045720	M/s. Bramaramba Share Consultancy Private Limited
5.	021546	M/s. Vizianagaram Communication Private Limited
6.	027435	M/s. S. R. Mactec Retreading Private Limited
7.	003856	M/s. Hind High Vacuum (Hyderabad) Private Limited
8.	035466	M/s. Sidhvi Cutting Tools Private Limited
9.	029046	M/s. Kit Computer Private Limited
10.	050708	M/s. C. V. Movies Private Limited
11.	026205	M/s. Aishu Housing Limited
12.	035757	M/s. E-Wave Technologies Private Limited
13.	002365	M/s. Asoka Paraffins Private Limited
14.	005297	M/s. Satish Kumar Agencies Private Limited
15.	014407	M/s. Kabsons Chemicals Limited

1	2	3
16.	041916	M/s. Jacana Software Private Limited
17.	038002	M/s. Swati Bioenergy Private Limited
18.	053902	M/s. RVK Homes Private Limited
19.	047127	M/s. Smart Realtors Services Private Limited
20.	043100	M/s. Sarvatra Security Services Private Limited
21.	057375	M/s. Vbuild Homes (India) Private Limited
22.	037943	M/s. Kapila Projects Private Limited
23.	051533	M/s. Venkat Sai Sri Harsha Projects Private Limited
24.	056725	M/s. C. V. Arts Private Limited
25.	056995	M/s. Rishtays Software Solutions Private Limited
26.	006938	M/s. Matchless Builders Private Limited
27.	012816	M/s. Genesis Chemicals Private Limited
28.	058430	M/s. Shaasta GRP Pipes India Private Limited
29.	015616	M/s. Suvarna Estates Private Limited
30.	043332	M/s. Siri Fuel Trade Private Limited
31.	012027	M/s. Naren Industrial Gases Private Limited
32.	052350	M/s. Anyio Technologies Private Limited
33.	053581	M/s. Tigerfish River Tours and Travels Private Limited
34.	041114	M/s. Halcyon Consultants Private Limited
35.	022146	M/s. Zen Agrotech Private Limited
36.	041140	M/s. Srinidhi Sweets Private Limited
37.	018212	M/s. Venkateswara Real Estates Private Limited
38.	041993	M/s. Adapala Infotech Private Limited
39.	013548	M/s. Ortech Farm Products Private Limited
40.	052380	M/s. Convertz IT & Telecom Private Limited
41.	047121	M/s. Sree Venkata Satyanarayana Cotton Spinners Private Limited
42.	035959	M/s. Teleswap Communication Projects Private Limited
43.	030753	M/s. Pragati Publications Private Limited
44.	048425	M/s. Palazzo Hotels and Resorts Private Limited

1	2	3
45.	010084	M/s. Chunnupati Tyres and Rubbers Products Private Limited
46.	020079	M/s. Ramdev Stock Broking Services Private Limited
47.	033769	M/s. Kites.Com Private Limited
48.	033505	M/s. Briggs Institute of Human Resources Development Private Limited
49.	047089	M/s. Kaushik Hospitality and Caterer Services Private Limited
50.	045201	M/s. Reddy Marriage Bureau Private Limited
51.	030737	M/s. Vensar Power Projects Private Limited
52.	029317	M/s. K.R.L. Agro Farms Private Limited
53.	016931	M/s. Annapurna Bottling Company Private Limited
54.	033628	M/s. Metrobit Technologies Private Limited
55.	051780	M/s. Siri Communications Private Limited
56.	053639	M/s. Pars Educational Services Private Limited
57.	034388	M/s. P.V.K. Systems Private Limited
58.	030681	M/s. Kashco Technologies Limited
59.	032489	M/s. Lakshmi Analytical Services Private Limited
60.	044995	M/s. VMR Medico Staffing Private Limited
61.	053832	M/s. BRK Management Consultancy Services Private Limited
62.	043563	M/s. Lakshmi Chaitanya Housing Private Limited
63.	052192	M/s. Conexe Software Technologies Private Limited
64.	022142	M/s. Cyber Aquatech Private Limited
65.	041516	M/s. G.S.S. Apparel Private Limited
66.	056352	M/s. Genext Careers Training Centres India Private Limited
67.	023590	M/s. Newcross Vaccine Laboratories Private Limited
68.	020769	M/s. Khammam Communication Private Limited
69.	028482	M/s. Aarman Airways Limited
70.	053386	M/s. Grand Automobiles India Private Limited

1	2	3
71.	049450	M/s. Chek Systems India Private Limited
72.	038462	M/s. Arizona Farms and Resorts Private Limited
73.	046453	M/s. Rums Akansha Technologies Private Limited
74.	044867	M/s. Krest Commodities Private Limited
75.	034367	M/s. Focus Netcom Limited
76.	031037	M/s. Rajesh Technologies Private Limited
77.	055196	M/s. Satyadev Software Solutions Private Limited
78.	021442	M/s. Prathima Biotech Exprots Limited
79.	035137	M/s. AP Recruit.Com Private Limited
80.	044255	M/s. LGB Consultancy Services Private Limited
81.	021003	M/s. Eco Solve (India) Private Limited
82.	009549	M/s. Leader Rubbers Private Limited
83.	048676	M/s. Pradhita Infosystems Private Limited
84.	036224	M/s. Archervisions Human Resources an Information Technology Private Limited
85.	049575	M/s. Stinson Molecular Ventures Private Limited
86.	033459	M/s. Unnati Infotech Services Private Limited
87.	052636	M/s. Aquarius Shelters Private Limited
88.	039963	M/s. Pintar Technology Private Limited
89.	039828	M/s. A. R. Patent Graphics Private Limited
90.	055730	M/s. Sixth Angle Interiors Private Limited
91.	055676	M/s. Kukunoor Constructions Private Limited
92.	054813	M/s. Anjaneya Agri Impex Private Limited
93.	043644	M/s. D. A. Constructions Private Limited
94.	008561	M/s. Bajal Agro Industries Private Limited
95.	056387	M/s. Neo Terra Soft Solutions Private Limited
96.	051558	M/s. Perla Properties Private Limited
97.	029459	M/s. Supra Information Technologies Private Limited
98.	055781	M/s. Prima Infocom Software India Private Limited
99.	016597	M/s. Elmar Aquafarms Private Limited
100.	013890	M/s. East Coast Plantations Limited

1	2	3
101.	015896	M/s. Mark Geometoecean Consultants Private Limited
102.	041354	M/s. Arisa Consulting and Technologies Private Limited
103.	029793	M/s. Simhachal Buildmat Private Limited
104.	042022	M/s. Xpro Infotech Private Limited
105.	039918	M/s. Sresta Knowledge Corp Private Limited
106.	056286	M/s. Sri Lakshmi Ganapathi Agri Exports Private Limited
107.	050346	M/s. E. J. Metafab Engineers Private Limited
108.	027132	M/s. Trans Logical Solutions India Private Limited
109.	028747	M/s. Geethanjali Educational Institutions Private Limited
110.	052912	M/s. Amazing Innovative Foods Private Limited
111.	032775	M/s. Koya Software Solutions India Limited
112.	048964	M/s. Sole Travels Private Limited
113.	051416	M/s. Efmex Technologies Private Limited
114.	030563	M/s. Jayvee Motor (India) Private Limited
115.	009607	M/s. Titan Constructions Private Limited
116.	023914	M/s. KM Media Private Limited
117.	032985	M/s. Arudra Interactive Private Limited
118.	028850	M/s. Moni Petrotech (India) Private Limited
119.	024217	M/s. Venkateshwara Iron Castings Private Limited
120.	024691	M/s. Vazrini Farm Chemicals (India) Private Limited
121.	008124	M/s. Sidhi Vinayak Synthetics Private Limited
122.	044470	M/s. Haritas Health Services Private Limited
123.	037912	M/s. Aqura Infotech Limited
124.	035745	M/s. EC Commons Soft Private Limited
125.	051778	M/s. Ushodhaya Haematology Hospital Private Limited
126.	022339	M/s. Vision Informatics Limited
127.	043596	M/s. Skytech Automation Systems Private Limited

1	2	3
128.	050347	M/s. Cosmo India Infracon Private Limited
129.	014644	M/s. Twincity Share Shoppee Private Limited
130.	043535	M/s. BRG Power Solutions Private Limited
131.	056381	M/s. Tellapur Tech Park Private Limited
132.	056382	M/s. Tellapur Town Centre Private Limited
133.	017821	M/s. Pacific Air and Cargo Private Limited
134.	056047	M/s. Sumati Hi-Tech Cold Storage Private Limited
135.	014062	M/s. Oriental High Seas Fisheries Limited

V. SANTOSHI JAGIRDAR  
Asstt. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ryan Finlease Madras Limited  
Chennai-600034, the 1st June 2011

No. 27390/560(5)/NL/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ryan Finlease Madras Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mandaveli Benefit Fund Limited  
Chennai-600034, the 1st June 2011

No. 24291/560(5)/NL/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mandaveli Benefit Fund Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Postalia Interfrank Private Limited  
Chennai-600034, the 1st June 2011

No. 6806/560(5)/NL/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Postalia Interfrank Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dhaanya Lakshmi Flori House Limited

Chennai-600034, the 1st June 2011

No. 27155/560(5)/NL/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dhaanya Lakshmi Flori House Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY

Registrar of Companies

Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Essar Sovcomflot Limited

Chennai-600034, the 1st June 2011

No. 25288/560(5)/NL/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Essar Sovcomflot Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY

Registrar of Companies

Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gajalakshmi Granites Private Limited

Chennai-600034, the 1st June 2011

No. 21339/560(5)/NL/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gajalakshmi Granites Private

Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY

Registrar of Companies

Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sree Bharathiyar Chits Private Limited

Chennai-600034, the 1st June 2011

No. 40928/560(5)/NL/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sree Bharathiyar Chits Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY

Registrar of Companies

Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Institute of Business Executives and Professional Men

Chennai-600034, the 1st June 2011

No. 18768/560(5)/NL/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Institute of Business Executives and Professional Men has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY

Registrar of Companies

Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands